mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-05 अंक-286 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना

17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

रोहित शर्मा के निशाने...

@ पेज 7

गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा

● आज 11.30 बजे नई कैबिनेट की शपथ; नए चेहरों पर फोकस, दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं

गांधीनगर, एजेंसी। गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। सीएम भूपेंद्र पटेल कुछ देर में राज्यपाल को मंत्रियों का इस्तीफा सौंपेंगे। कल गांधीनगर में सुबह 11.30 बजे नई कैबिनेट का शपथ समारोह होगा।

नई कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। गुजरात की मौजूदा कैबिनेट में सीएम पटेल समेत 17 मंत्री थे, जिसमें आठ कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री (स्वतंत्र) हैं।

गुजरात विधानसभा में 182 विधायक हैं। इस लिहाज से गुजरात सरकार में सीएम समेत 27 मंत्री हो सकते हैं। जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, उन्हें फोन कर सूचना दे दी गई है। शपथ समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहेंगे।

कांग्रेस से आए नेताओं को मिल सकता है मंत्रीपद : नए मंत्रिमंडल में 16 में से 7-10 मंत्रियों को ड्रॉप और 3-5 मंत्री रिपीट किए जा सकते हैं। नए चेहरों में कांग्रेस से आए अर्जुन मोढवाड़िया, अल्पेश ठाकोर, सीजे चावड़ा और हार्दिक पटेल को मौका मिल सकता है।

सौराष्ट्र से जयेश रादडिया और जीतू वाघानी को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। खासकर पाटीदारों और उत्तर गुजरात से ठाकोर समुदाय को तवज्जो दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन राज्य मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है, उनमें मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, पंचायत मंत्री बच्चूभाई खाबर, वन एवं पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भीखूसिंह परमार और आदिवासी विकास मंत्री कुंवरजी हलपति शामिल हैं।

पीएम मोदी बोले- 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की होगी

आज दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही, वजह आत्मनिर्भर भारत का विजन

नंदयाल/कुर्नूल, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्रप्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत 'विकसित भारत बन चुका होगा। मैं दावे से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की,140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। आज दुनिया, भारत को 21वीं सदी के नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। इस सफलता का सबसे बड़ा आधार है, आत्मनिर्भर भारत का विजन। हमारा आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

इसके पहले मोदी नांदयाल पहुंचे। मोदी ने यहां श्रीशैलम में भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में दर्शन,पूजा और ध्यान किया। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में शामिल है। यह एकमात्र मंदिर है, जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। इसके बाद पीएम मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना की।

मोदी ने शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में पूजा-अर्चना की : पीएम मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी पहुंचे। वहां पूजा-अर्चना की। यह एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी साथ थे। यहां मेडिटेशन हॉल है, जिसके चारों कोनों पर चार मशहूर किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल बने हैं। इसके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की ध्यान की मुद्रा वाली मूर्ति भी है।

गूगल आंध्र में कर रही आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश

मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ। बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में सेवा करने का अवसर मिला और आज श्री शैलम का आशीर्वाद मिल रहा है।

मोदी ने कहा अभी दो दिन पहले ही गूगल ने आंध्र प्रदेश में बड़े निवेश की घोषणा की है। गूगल आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रहा है। कल जब मैं गूगल के सीईओ से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिका के बाहर दुनिया भर के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन अब हम आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। इस नए एआई हब में शक्तिशाली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर क्षमता, बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्रोत और विस्तारित फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क शामिल हैं। एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे बनाया जाएगा।

पटना के मौर्या होटल में वीआईपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट,कुर्सियां फेंकीं

बेगूसराय में नामांकन के दौरान भाजपा-कांग्रेस समर्थक भिड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज किया

नई दिल्ली/पटना, एजेंसी। बिहार में महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। पटना के होटल मौर्या में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे की शर्ट की कॉलर तक पकड़ी ली। कुर्सियां फेंक दीं। सूत्रों के मुताबिक, सहनी ने 243 में कम से कम 24 सीटों की मांग की है। तेजस्वी यादव उन्हें सिर्फ 15 सीटें देने पर अड़े हैं। सहनी और 8 से 9 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने आज दोपहर 12 बजे होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बाद में इसे टाल दिया। अब वे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं दूसरी तरफ, बेगूसराय के बछवाड़ा सीट से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी एकसाथ नामांकन के लिए तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से समर्थकों ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। NDA के 226 प्रत्याशी घोषित, महागठबंधन की एक भी लिस्ट नहीं आई बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA ने गुरुवार तक 226 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा और JDU ने अपने सभी 101-101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा (आर) 14, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के 6 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने भी 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं। दूसरी तरफ, महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी चल रही है। राजद और कांग्रेस लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है। हालांकि, किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक भी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है। राज्य में 2 फेज यानी 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है।

नारायण-सुधा मूर्ति का जाति जनगणना में शामिल होने से इनकार

सर्वेयर से कहा- हम पिछड़े वर्ग से नहीं; कर्नाटक सरकार बोली- मजबूर नहीं कर सकते

बेंगलुरु, एजेंसी। इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना में भाग लेने से इनकार कर दिया है। कुछ दिन सर्वे करने वाले लोग उनके घर गए थे, तो उन्होंने कहा- हम अपने घर पर सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार करते हुए एक घोषणापत्र पर साइन किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा- हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं। इसलिए, उन समुदायों के लिए कराए जा रहे सरकार के सर्वे में भाग नहीं लेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सुधा मूर्ति और उनके परिवार के रुख पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- सर्वे में भाग लेना या न लेना ऑप्शनल है। अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता है तो हम किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

पंजाब में 5 लाख रिश्वत लेता डीआईजी गिरफ्तार

सीबीआई ने मोहाली ऑफिस से पकड़ा, चंडीगढ़ में घर पर भी रेड; कारोबारी से मांगी घूस

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब में रोपड़ रेंज के छ्ढ्ढत्र हरचरन सिंह भुल्लर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उसने मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से 5 लाख रिश्वत मांगी थी। कारोबारी ने CBI को शिकायत दी। इसके बाद CBI ने ट्रैप बिछाया। गुरुवार को कारोबारी पैसे लेकर मोहाली स्थित ऑफिस से पहुंचा था। यहीं से टीम ने भुल्लर को पकड़ लिया। ऑफिस के साथ CBI की टीम उसके चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में स्थित घर में पहुंची है। जहां जांच जारी है। भुल्लर को कल चंडीगढ़ में CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। भुल्लर विभिन्न जिलों में SSP रह चुका है। रोपड़ रेंज में तैनाती के दौरान ही कई अवैध कार व्यापार के मामले सामने आए थे, जहां चेसिस नंबर बदलकर स्क्रैप गाड़ियां बेची जा रही थीं। सूत्रों के मुताबिक भुल्लर इन मामलों को दबाने के लिए रिश्वत लेता था। हरचरन सिंह भुल्लर 2007 बैच का IPS अधिकारी है। 27 नवंबर 2024 को उसे रोपड़ रेंज का DIG लगाया गया था।

अवैध कार कारोबार चलाने के बदले 5 लाख रुपए मांगे : स्क्रैप कारोबारी ने शिकायत में बताया था कि भुल्लर ने उसके अवैध कार व्यापार को जारी रखने के बदले मासिक रिश्वत मांगी थी। DIG ने पहले 2 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बाद में इसे 5 लाख तक बढ़ा दिया।

अहमदाबाद प्लेन-क्रैश पायलट सुमीत सभरवाल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

याचिका में कहा- जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं, कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए

नई दिल्ली, एजेंसी। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जांच को लेकर पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल और इंडियन पायलट्स फेडरेशन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि वे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा खो चुके हैं। इसलिए हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। याचिकार्ताओं ने कोर्ट की निगरानी में जांच या कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की मांग की है।

कर्नाटक कांग्रेस विधायक बोले- अधिकारी प्रेग्नेंसी का बहाना बनाती हैं

● मीटिंग में नहीं आतीं, पूछो तो कहती हैं डॉक्टर के पास जाना है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती

चेन्नई, एजेंसी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक शिवगंगा बसवराज ने एक महिला अधिकारी पर विवादित कमेंट कर दिया। विधायक राज्य में डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी एक रिव्यू मीटिंग ले रहे थे। जिसमें वन रेंज अधिकारी श्वेता शामिल नहीं हुईं। फिर विधायक ने मीटिंग में सभी के सामने कहा कि अगर वे (अधिकारी) प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? वह पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें बैठकों के लिए बुलाया जाता है, तो वह छुट्टी ले लेती हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती।

6 दिन पहले कर्नाटक सरकार ने पीरियड लीव पॉलिसी मंजूर की कर्नाटक सरकार ने 9 अक्टूबर को पीरियड लीव पॉलिसी 2025 अप्रूव कर दी है। इससे सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 1 पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी सालभर में 12 छुट्टियां मिलेंगी।

चीफ मिनिस्टर सिद्धारम्मैय्या की कैबिनेट मीटिंग में इस पॉलिसी पर चर्चा की गई थी।

एक साल से चल रहा था काम : कर्नाटक के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने कहा, 'विभाग पिछले एक साल से इसपर काम कर रहा था। इसे लेकर कई लोगों ने अपने आपत्ति भी दर्ज कराई। हमने अलग-अलग विभागों से भी बात की।

महिलाएं बहुत स्ट्रेस में होती हैं, खासतौर पर वो जो दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करती हैं। इसलिए हम थोड़ा प्रगतिशील होते हुए एक दिन की छुट्टी उन्हें देना चाहते थे। अब उनके पास महीने में एक दिन छुट्टी लेने की छूट होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसका गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा।

राजद-कांग्रेस पर योगी का निशाना

अब कोई भी बिहार को पुराने लालटेन युग में नहीं ले जा पाएगा : योगी आदित्यनाथ

पटना, एजेंसी। भाजपा के नेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा के चुनावी रण में उतर चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को दूसरी जनसभा सहरसा में की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार को आज जब मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, वाटरवे के रूप में पहचान मिल रही है तो इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद)-कांग्रेस ने शिगूफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। इससे यह लोग फर्जी मतदान कराकर गरीबों-दलितों के हकों पर डकैती डाल सकें। चुनाव में यह विकास की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बिहार अब पुराने लालटेन युग में नहीं जाएगा, नीतीश जी (मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) इसे एलईडी की दूधिया लाइट में लेकर आगे बढ़ चुके हैं।

योगी आदित्यनाथ ने यहां नामांकन रैली में सहरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार आलोक रंजन झा, सोनबरसा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक

गठबंधन (राजग) उम्मीदवार रत्नेश सादा, महिषी से गुंजेश्वर शाह व सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह (लोजपा) को जिताने की अपील की। योगी ने दोनों विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे, लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थयात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, पासपोर्ट पर फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग पर कहेंगे कि बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। कांग्रेस व राजद फिर से गरीबों के हकों पर डकैती डालने की साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, क्योंकि कांग्रेस व राजद ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था।

उप्र मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि यह अपने शासनकाल में भारत को अपमानित करते थे। घुसपैठ कराकर अराजकता फैलाते थे। राजद ने बिहार का नहीं, परिवार का विकास किया। राजग पूरे भारत के लिए सोचता है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिहार में विकास नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। बाढ़ की समस्या का समाधान बढ़ रहा है। अब गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलता है।

ट्रेन में अब बेडरोल में कंबल के साथ मिलेगा कवर

● जयपुर-असर्वा एक्सप्रेस के एसी पैसेंजर्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली, जयपुर ,एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार से राजस्थान के खातीपुरा जयपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर-असर्वा एक्सप्रेस के एसी क्लास पैसेंजर्स के लिए कंबल कवर की सुविधा शुरू की है। यह पायलट प्रोजेक्ट है, जो सफाई और हाइजीन सुधारने के लिए लाया गया है। सभी एसी कोच के यात्रियों को प्रिंटेड कंबल कवर मिलेंगे, ताकि गंदे कंबल और बदबू आने की शिकायत न मिले।

रेल मंत्री ने कहा कि अगर यह सुविधा सफल रही तो पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।

इससे पहले रेलवे ने जानकारी दी थी कि एसी कोच में बेडरोल में मिलने वाले कंबल को हर महीने धोया जाता है।

पहले बेडरोल किट में एक्स्ट्रा बेडशीट दी जाती थी, जो क्लिल्ट कवर की तरह इस्तेमाल होती थी।

मंत्री बोले- सफाई को लेकर संशय रहता था : रेल मंत्री ने कहा कि कंबल का इस्तेमाल सालों से हो रहा है, लेकिन सफाई को लेकर संशय था। इस संशय को दूर करने के लिए कंबल कवर की शुरुआत की गई है।

यह प्रोजेक्ट जयपुर-असर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12981) पर चलेगा। ट्रेन जयपुर से असर्वा तक 11 घंटे 55 मिनट में पहुंचती है।

पैसेंजर इन्फो सिस्टम की शुरुआत : जयपुर में रेल मंत्री ने अन्य सुविधाएं जैसे नए प्लेटफॉर्म और पैसेंजर इंफो सिस्टम की शुरुआत की।

सरकार ने फूड-ड्रिंकिंग प्रोडक्ट पर ORS लेबल के नियम बदले

कंपनियां WHO से फार्मूला मंजूर होने के बाद लेबल लगा सकेंगी; 2022-24 के आदेश रद्द किए

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्था (FSSAI) ने कहा कि यदि किसी फूड-ड्रिंकिंग प्रोडक्ट का फार्मूला विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मंजूर न किया गया हो तो कंपनी उस प्रोडक्ट पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) का लेबल नहीं लगा सकेगी। सभी कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स से ORS लेबल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

केंद्र सरकार के 2022 और 2024 के आदेश में कंपनियों को अपने प्रोडक्ट में ORS शब्द जोड़ने की अनुमति दी गई थी जैसे प्रीफिक्स (शुरू में) या सफिक्स (अंत में)। इसके बाद कुछ फ्रूट ड्रिंक, नॉन-कार्बोनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ ORS का लेबल लगाने लगे थे।

हालांकि, तब शर्त रखी गई थी कि उस प्रोडक्ट पर साफ लिखना होगा कि उत्पाद WHO द्वारा अनुशंसित ORS फार्मूला नहीं है। अब FSSAI ने इन पुराने आदेशों को पूरी तरह रद्द कर दिया

है।सरकार ने कहा कि इससे फर्जी ह्रत्र्न्स उत्पादों पर लगाम लगेगी और ग्राहकों को असली, सुरक्षित और WHO मानक वाले ORS प्रोडक्ट ही मिलेंगे। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

डॉक्टरों ने फैसले का स्वागत किया : बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवरंजनी संतोष ने सोशल मीडिया पर सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा- अब कोई भी कंपनी WHO द्वारा सुझाए गए फार्मूले के बिना ORS नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। यह आदेश तुरंत लागू होगा। डॉ. संतोष ने पिछले कुछ समय से गलत लेबलिंग वाले ORS ब्रांड्स के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्होंने इस फैसले के लिए उन सभी अभिभावकों, डॉक्टरों, पत्रकारों और शिक्षकों का धन्यवाद दिया जिन्होंने इस अभियान में उनका साथ दिया।

29 जुलाई को वर्ल्ड ORS डे मनाया जाता है। इस मौके पर आज जरूरत की खबर में जानेंगे कि ORS क्या है, इसे कैसे और कितना पीना चाहिए। साथ ही घर पर इसे बनाने का तरीका क्या है।

अबकी बार पर्यावरण संग उत्सव, सात साल बाद दिल्ली के लोगों को आतिशबाजी की मिली अनुमति

दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के लोग करीब सात साल बाद दीपावली पर पटाखे जला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिलने के बाद दिल्लीवासी बेहद खुश हैं। इससे उत्साहित दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोर्ट का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये निर्णय देश की सांस्कृतिक संवेदनाओं और जनभावनाओं को समझने वाला कदम है, जो परंपरा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच सुंदर संतुलन स्थापित करता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंचने के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015-16 से ही पटाखों पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिल्ली एनसीआर में पारंपरिक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई।

अदालत ने यह माना कि पटाखे प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक हैं। इनके प्रयोग पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। तब से दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध रहा। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर 19 और 20 अक्तूबर

को सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त छूट दी है। दिल्ली सरकार की ओर से अधिकृत विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेचेंगे। फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि अभी उसने किसी को भी ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी है। जल्द ही विश्वसनीय और सक्षम विक्रेताओं को अधिकृत लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए बुधवार शाम को मंत्री ने दिल्ली के तमाम पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक की है।

दिल्ली सरकार कराएगी कोर्ट के निर्देशों का पालन : बुधवार को सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार ज्यादातर दुकानदारों को लाइसेंस देगी, ताकि ग्रीन पटाखों की कालाबाजारी न हो। सबको आसानी से पटाखे उपलब्ध हों। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीपीसीसी, सीपीसीबी सहित दिल्ली सरकार की अन्य जिम्मेदार एजेंसियां ग्रीन पटाखों की बिक्री, इन्हें जलाने के समय, कोर्ट के निर्देशों का पालन कराएंगी। उन्होंने दिल्लीवासियों से सरकार के साथ मिलकर नियमों का पालन कराने में सहयोग करने की अपील भी की है। मंत्री ने कहा है कि लोगों के सहयोग से दीपावली के पर दिल्ली की हवा बेहतर रही तो ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति आगे भी जारी रहेगी।

नीरी से प्रमाणित, क्यूआर कोड लगे ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे: दिल्ली सरकार ने साफ निर्देश दिये हैं कि केवल नीरी की ओर से प्रमाणित क्यूआर कोड लगे ग्रीन पटाखे ही दुकानदार बेच पाएंगे। इनकी बिक्री 18 से 20 अक्तूबर तक तीन दिन तक की जा सकेगी। ग्रीन पटाखों की बिक्री के स्थान और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त जल्द ही तय करेंगे। सभी जिलों में अधिक दुकानों को लाइसेंस दिए जाएंगे। दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की सुप्रीम कोर्ट से छूट मिलने के बाद पर्यावरण मंत्री ने डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव, डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप कुमार और पीईएसओ, नीरी, एमसीडी और एनडीएमसी और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने की तैयारी की। पीईएसओ प्रमाणित पटाखा विक्रेताओं के साथ भी मंत्री ने बैठक की। मंत्री ने कहा, इस दीपावली पटाखा विक्रेता भी सरकार के अभियान का हिस्सा रहेंगे। वे लोगों को बताएंगे कि केवल ग्रीन पटाखे ही मान्य हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनके उपयोग का समय सिर्फ दो घंटे रात में 8 से 10 बजे और एक घंटा सुबह 6 से 7 बजे तय किया है। यह छूट फिलहाल अस्थायी है, लेकिन अगर दिल्ली ने अनुशासन और जागरूकता दिखाई तो यह स्थायी भी हो सकती है। **एक्यूआई रिपोर्ट सीपीसीबी, सुप्रीम कोर्ट रोज जाएगी :** मंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) 14 से 25 अक्तूबर तक हर दिन एक्यूआई स्तर की निगरानी करेगी। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। कोर्ट के निर्देश का पूरा पालन किया जाएगा। साल 2018 में वैज्ञानिक संस्थान सीएसआईआर नीरी ने ग्रीन पटाखे विकसित किए। अक्तूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग को सशर्त अनुमति दी थी।

डीयू वीसी इंटर्नशिप स्कीम के लिए 2280 छात्र शॉर्टलिस्ट, ग्रुप डिस्कशन समाप्त

दिल्ली, एजेंसी । दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की वाइस चांसलर (VC) इंटर्नशिप स्कीम पार्ट टाइम 2025-26 के लिए 2280 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस बार 3500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें 2280 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

15 अक्तूबर को ग्रुप डिस्कशन हुआ समाप्त : आवेदकों को 13 से 15 अक्तूबर तक ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। यह प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। आगामी दिनों में चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। चयन के बाद वीसी इंटर्नशिप के लिए छात्रों को डीयू के 55 से अधिक विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। डीयू ने वर्ष 2022-23 में इस स्कीम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य डीएसडब्ल्यू कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इससे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों और सामान्य रूप से सरकारी व्यवस्थाओं में आधिकारिक कामकाज को समझने में मदद मिलती है। डीएसडब्ल्यू कार्यालय दो प्रकार की इंटर्नशिप प्रदान करता है। शैक्षणिक सत्र के दौरान छह महीने के लिए वीसी इंटर्नशिप स्कीम पार्ट टाइम और गर्मी की छुट्टियों के दौरान दो महीने के लिए फुल टाइम ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप उपलब्ध कराता है।

प्रति सप्ताह 8-10 घंटे करना पड़ता है काम : प्रति सप्ताह पार्ट टाइम इंटर्नशिप के दौरान प्रति सप्ताह 8-10 घंटे काम करना पड़ता है। इसके लिए चयनित छात्र को 5775 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है। जबकि ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए प्रति सप्ताह 20 घंटे कार्य करना होता है। इसके लिए 11 हजार रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है।

प्रशासन की निगहबानी को धता बता हर साल होती रही आतिशबाजी, दिवाली पर जमकर फोड़े जाते रहे पटाखे

नई दिल्ली, एजेंसी। पटाखों पर कोर्ट ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन 7 साल तक लगी रोक के दौरान भी राजधानी में हर दिवाली पटाखों की गूंज सुनाई देती रही। इसके लिए प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठना लाजिमी है। एक और वजह दिल्लीवासियों का पटाखों की परंपरा से खुद को अलग न कर पाना भी है। वर्ष 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगाई और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी, तो उम्मीद थी कि इससे वायु गुणवत्ता सुधरेगी। लेकिन इसके पालन में लापरवाही और नियंत्रण की कमी से हर दीपावली पर एक्यूआई की स्थिति खराब होती रही।

दिल्ली पुलिस हर साल बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद करती है, लेकिन दीपावली पर सस्ते और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर लगाम लगती नहीं दिखती। वर्ष 2020 में एनजीटी ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया, तब भी स्थिति में खास बदलाव नहीं आया। प्रतिबंध के बावजूद दिवाली की रात पटाखे फूटे, और शादी-ब्याह में भी आतिशबाजी आम रही।

दिल्ली के निवासी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, गाजियाबाद और नोएडा से पटाखे खरीदकर लाते रहे।

रसगुल्लों में कीड़े और गाय के घी के पैकेट में मिली मिलावट, गोरखधंधा करने वालों पर कार्रवाई

नोएडा, एजेंसी । शहर में मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। बुधवार को खाद्य विभाग ने कीड़े मिलने पर 110 किग्रा रसगुल्लों को नष्ट करा दिया। वहीं गाय का घी पैक करने वाली कंपनी से 128 किलो मिलावटी घी जब्त की गई है। विभाग की ओर से रसगुल्लों और घी के साथ कुल 10 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी मालती ने दनकौर पनीर भंडार से पनीर का नमूना लिया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, विशाल गुप्ता, रविंद्र नाथ वर्मा और

अमर बहादुर सरोज की टीम ने सेक्टर डेल्टा वन स्थित बाबू रतन मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना लिया।

टीम ने मंगलवार देर रात जेवर टोल प्लाजा पर अलीगढ़ की तरफ से आने वाली पनीर और दूध की गाड़ियों की जांच की। मौके से मधु डेयरी मथुरा के दूध के टैंकर से दूध का नमूना लिया।

दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 कॉलेजों को दी 108 करोड़ की सौगात, अब तक तीन किस्तों में दिए 325 करोड़ रुपये

दिल्ली,एजेंसी । दिल्ली सरकार ने डीयू से संबद्ध 12 कॉलेजों को 108 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी की है। अब तक सरकार कुल 325 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी कर चुकी है, जिससे कॉलेजों के विकास और स्टाफ के वेतन में राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 वित्तपोषित कॉलेजों को वित्तीय सहयोग देने के लिए वर्ष 2025-26 की तीसरी किस्त के रूप में 108 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। अब तक तीन किस्तों में कॉलेजों को 325 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई है। सूद ने कहा कि अगर शिक्षण संस्थान वित्तीय रूप से समृद्ध नहीं होंगे तो उनमें अच्छे और काबिल छात्र नहीं बन पाएंगे। इन उपहार दिया है।

भूकंप से दहला इंडोनेशिया, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7 रिकॉर्ड

जर्काता, एजेंसी। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि गुरुवार को इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 70 किलोमीटर (43.5 मील) की गहराई में था।

पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की है। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र अबेपुरा शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था, जिसकी आबादी 62,000 से ज्यादा है। इंडोनेशियाई मौसम विज्ञान विभाग, इंडोनेशियाई मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी यानी बीएमकेजी के अनुसार, भूकंप 6.6 तीव्रता का था, जो सारमी-पापुआ से 61 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था।

इससे पहले, 10 अक्टूबर को, दक्षिणी फिलीपींस के तट पर दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसके बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी।

भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी और भूकंप केंद्र के पास के शहरों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था।

विशाल द्वीप समूह वाला देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। जिस वजह से यहां अक?सर भूकंप आते रहते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं और यह जापान से दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए प्रशांत बेसिन तक फैला रहता है।

जनवरी 2021 में सुलावेसी में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप में 100 से अधिक लोग मारे गए थे जबकि हजारों बेघर हो गए थे। इससे पहले 2018 में पालु में 7.5 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में 2 हजार से जयादा लोग मारे गए थे। 2004 में आचे प्रांत में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था।

बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह कराने के समय पर राजनीतिक दलों में गतिरोध

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने के समय को लेकर राजनीतिक असहमति अंतरिम सरकार धर्मसंकट में है। संकेत हैं कि मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस जल्द ही निर्णायक हस्तक्षेप कर सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी में होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा है। इसके उलट बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) जैसी पार्टियां जनमत संग्रह चुनाव से पहले कराने की मांग कर रही हैं। जमात और एनसीपी का तर्क है कि चार्टर पर जनता की राय मतदान से पहले जाननी चाहिए।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार कल (शुक्रवार) जुलाई के राष्ट्रीय (जुलाई) चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाली है इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेदों को पाटने और हस्ताक्षर से पहले अनिश्चितता को दूर करने के प्रयास में सर्वसम्मति आयोग के अध्यक्ष डॉ. यूनुस ने बुधवार को प्रमुख राजनीतिक दलों और गठबंधनों के नेताओं से चर्चा की। चर्चा के बाद वामपंथी गठबंधन ने अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए घोषणा की कि वह चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

एनसीपी नेता अख्तर हुसैन ने कहा कि जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर करने के पार्टी के फैसले की समीक्षा की जा रही है। बताया गया है कि अंतरिम सरकार के विभाग भी जनमत संग्रह की समय-सीमा को लेकर विभाजित हैं। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर समारोह कल राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में निर्धारित है। इसमें कम से कम 30 राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। जनमत संग्रह का मूल प्रस्ताव राष्ट्रीय सहमति आयोग का है। अब आयोग अंतरिम सरकार को संभावित तिथियों का सुझाव देते हुए एक औपचारिक पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है।

आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉ. बदीउल आलम मजूमदार ने पुष्टि की है कि अभी तक समय सीमा तय नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा, हमने जनमत संग्रह कब होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने के समर्थकों का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों को जनता की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा।

इस मसले पर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने सोमवार रात बैठक की। पार्टी ने अपने रुख की पुष्टि की कि जनमत संग्रह राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही होना चाहिए। महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद सहित बीएनपी नेताओं ने शीघ्र जनमत संग्रह के विचार को चुनाव में देरी की एक चाल बताकर खारिज कर दिया ।

फखरुल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार सहमत शर्तों से पीछे हटती है तो बीएनपी जनमत संग्रह और चुनाव दोनों का बहिष्कार कर सकती है। संविधान सुधार आयोग के एक सदस्य ने संकेत दिया कि एक धर्म-आधारित पार्टी रणनीतिक लाभ के लिए चुनाव में देरी करना चाह रही है। जमात महासचिव प्रो. मिया गुलाम पोरवार ने टकराव की बजाय बातचीत का आग्रह करते हुए सुलह का स्वर अपनाया है। उन्होंने आम सहमति में बाधा डालने वाले एक राजनीतिक नेता के अहंकार की भी आलोचना की।

बीएनपी और गणतंत्र मंच के नेताओं ने कहा कि डॉ. यूनुस इस मुद्दे पर काफी हद तक चुप रहे हैं। हालांकि, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यात्रा से लौटने के बाद वह कथित तौर पर काफी मजबूत स्थिति में हैं। बीएनपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, अगर डॉ. यूनुस जनमत संग्रह पर जल्दबाजी में राजपत्र जारी कर देते हैं तो राजनीतिक दलों के पास पैंतरेबाजी करने की बहुत कम गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि अगर वे सहयोग करने से इनकार करते हैं तो उन्हें और सख्ती से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

सियासी संकट की कगार पर फ्रांस

दो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, जा सकती है मैक्रों की साा

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस एक नए राजनीतिक संकट की कगार पर खड़ा है, जहां प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू के नेतृत्व वाली सरकार को राष्ट्रीय सभा में दो अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रस्ताव पास हो गए, तो राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के पास केवल एक विकल्प बचता है- संसद भंग करके नई चुनाव कराना।

अविश्वास प्रस्ताव मैक्रों के कट्टर विरोधियों द्वारा दायर किए गए हैं, हार्ड-लेफ्ट पार्टी फ्रांस अनबॉव्ड और दाहिने के नेशनल रैली की नेता मरीन ले पेन अपने सहयोगियों के साथ। अगर लेकोर्नू सफल रहते हैं, तो यह नजदीकी वोटिंग हो सकती है, लेकिन

हारने पर राष्ट्रपति संसद भंग करने का रास्ता अपना सकते हैं।

क्यों और किसने प्रस्ताव दायर किया

ले पेन ने लंबे समय से नए विधानसभाई चुनाव की मांग की है और पोल में उनके पक्ष में समर्थन दिख रहा है। उनके सहयोगी एरिक सियोटी के साथ मिलकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि संसद भंग करना देश को संकट से निकालने का सबसे लोकतांत्रिक और प्रभावी तरीका है। फ्रांस अनबॉव्ड पार्टी का प्रस्ताव भी इसी दिन दायर हुआ, जिसमें कहा गया कि लेकोर्नू को हटाना मैक्रों को भी सत्ता से हटाने की दिशा में मदद कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ने साफ किया है कि वह 2027 तक अपने कार्यकाल को समय से पहले समाप्त करने का इरादा नहीं रखते।

नेपाल: निर्वाचन आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में आम चुनाव के लिए जरूरी तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देश की अंतरिम सरकार ने 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की घोषणा की है।

निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बैठक में उन 29 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है जो पिछले संघीय संसद, प्रदेश सभा और स्थानीय चुनाव में कम से कम एक भी सीट पर जीत हासिल की थी। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने कहा कि सभी दलों से निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की गई है। इस समय पूरे देश में मतदाता नामावली संकलन का काम चल रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी: भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं 1.4 करोड़ लोग

जिनेवा, एजेंसी । संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी ने बुधवार को कहा कि उसके प्रमुख दानदाताओं द्वारा वित्त पोषण में की गई कटौती से छह देशों में उसकी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। उसने चेताया कि इससे करीब 1.4 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि इस वर्ष उसका वित्त पोषण अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है।डब्ल्यूएफपी ने कहा, इस चुनौती का मुख्य कारण अमेरिका (डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत) तथा अन्य प्रमुख पश्चिमी देशों द्वारा अनुदान में की गई भारी कटौती है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि उसकी खाद्य सहायता प्राप्त करने वाले 1.37 करोड़ लोगों को अब आपात स्तर की भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। जिन देशों में मुख्य व्यवधान देखने को मिल रहे हैं, वे अफगानिस्तान, कांगो, हैती, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान हैं। सभी दलों को इस कार्य में भी सहयोग करने की अपील की गई है।हाल ही में सरकार ने नेपाल में मतदान की उम्र सीमा को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष कर दिया है। नेपाल में जेन जी विद्रोह के बाद गठित अंतरिम सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए निर्वाचन में मतदान करने की उम्र को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष किए जाने का फैसला किया था।इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन तालिका के मुताबिक ही सभी दल अपना पंजीकरण और नवीकरण करा लें। आयोग ने आम निर्वाचन में सहभागिता के लिए नए राजनीतिक दलों को अपना दल पंजीकरण कराने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया है। इसी तरह पुराने राजनीतिक दलों को भी इसी अवधि में अपने दल का नवीकरण कराने को कहा गया है। यूएफपी ने बताया कि इस साल उसे 40त्न कम वित्त पोषण मिलने के आसार हैं।

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में राष्ट्रीय शोध वेबीनार का हुआ आयोजन

नई शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं अनुसंधान पर केंद्रित है : प्रो. शरद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार का विषय नई शिक्षा पद्धति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रहा, जिसमें देशभर से लगभग 284 शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गीता भारती द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में नई शिक्षण पद्धति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वर्तमान शिक्षा जगत में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यशाला की सह-संयोजक डॉ. भावना नागेंद्र ने विषय विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों का स्वागत कर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

एकदिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार में मुख्य वक्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने शोधार्थियों को नई शिक्षा पद्धति से अवगत कराते हुए रचनात्मक, छात्र-केंद्रित एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षण पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं अनुसंधान पर केंद्रित है, जिसके कारण विद्यार्थियों में क्रियात्मक क्षमता, तर्कशक्ति एवं रचनात्मक सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। सह-वक्ता के रूप में गैलगोटियस विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) से ऑनलाइन जुड़ी डॉ. सुदेशना चक्रवर्ती ने नई शिक्षण पद्धति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गहन एवं शोधपरक व्याख्यान प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य एवं उद्योगों के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, जिससे मानव की सोचने की क्षमता को नया आयाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एवं डेटा प्रोसेस जैसी अवधारणाओं को समझना आवश्यक है तथा शिक्षण एवं अनुसंधान में एआई का एकीकरण समय की मांग है।

शोधार्थियों की रही उत्साही सहभागिता: देशभर के विभिन्न राज्यों के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से लगभग 284 शोधार्थियों ने ऑनलाइन भाग लेकर नई शिक्षण पद्धति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विविध पहलुओं पर संवाद किया। वेबीनार में डॉ. सुरेश तिवारी, डॉ. वहीदुन निशा, राजकिशोर तिवारी, सुषमा शुक्ला, डॉ. असलेन्द्र जायसवाल, डॉ. रेनू सिंह, पंकज सिंघल, गुलाब सिंह श्याम, संदीप कुमार कोल, मनीष सोनी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संयोजन प्रो. सुनील सिंह (आयोजक सचिव) एवं संचालन डॉ. संदीप कुमार शर्मा (सह-संयोजक) द्वारा किया गया। अंत में कार्यक्रम के संयोजक प्रो. बी. एल. सिंह 'आयाम' ने सभी उपस्थितजनों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

खदान में डोजर ऑपरेटर की तलाश बंद, एनडीआरएफ और सेना ने 5 दिन बाद रेस्क्यू रोका; परिवार ने मौत स्वीकारी

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सोहागपुर एरिया में एक निजी कंपनी के कामकाजी स्थल पर मिट्टी धंसने से डूबे डोजर मशीन ऑपरेटर अनिल कुशवाहा की तलाश पांच दिन बाद बंद कर दी गई है। प्रशासन ने परिवार की सहमति से उन्हें मृत मान लिया है। यह हादसा 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे हुआ। दरअसल, आरकेटीसी कंपनी द्वारा फिलिंग के दौरान मिट्टी अचानक फिसल गई। इससे डोजर मशीन और एक हाईवा गहरे पानी में डूब गए। अनिल कुशवाहा रीवा के मऊगंज के निवासी थे।

एनडीआरएफ के 94 जवानों ने की कोशिश: जिला प्रशासन ने अनिल कुशवाहा की तलाश के लिए वाराणसी से राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) और जबलपुर से सेना की मदद मांगी थी। एनडीआरएफ के 94 जवानों ने प्रयास किए और 84 फीट की गहराई में हाईवा का पता लगाया, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। सेना ने भी वाहन और ऑपरेटर को पानी से निकालने में असमर्थता जताई।

परिवार की सहमति के बाद बंद हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन: कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बताया कि परिवार की सहमति के बाद अनिल कुशवाहा को मृत मान लिया गया है। पुलिस और पंचनामा रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने एसईसीएल या आरकेटीसी द्वारा लगभग 45 लाख रुपए के मुआवजे की राशि तय की है।

45 लाख का मुआवजा देगी कंपनी: यह इस तरह का पहला हादसा नहीं है। 2014 में भी धनपुरी ओसीएम में मिट्टी भरने के दौरान एक कर्मचारी गहरे पानी में डूब गया था, जिसे निकालने के प्रयास में एक क्रेन और एक गोताखोर भी डूब गए थे। 15 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उन्हें नहीं खोजा जा सका था।

रसोइयों का प्रदर्शन, वेतन वृद्धि की मांग; महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर दिया धरना

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्याह्न भोजन योजना की रसोइयों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे 70 से अधिक रसोइयां विथिका भवन परिसर में एकत्रित हुईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांग है कि वर्तमान 4 हजार रुपए मासिक वेतन को बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपए महीने की जाए, ताकि वे जीवन-यापन कर सकें।

महिलाएं बोलीं-सालों से मानदेय में नहीं हुई बढ़ोतरी: प्रदर्शनकारी रसोइयों ने बताया कि वे कई सालों से स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन बना रही हैं, लेकिन उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रसोईया आनंदी बैस ने कहा कि सुबह से दोपहर तक काम करने के बावजूद 4 हजार रुपए में परिवार का खर्च चलाना असंभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी: महिलाओं ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि गैस, राशन और स्कूल आने-जाने का खर्च भी इसी मामूली रकम से उठाना पड़ता है, जिससे उनका जीवनयापन बेहद कठिन हो गया है। अन्य रसोइयों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी वेतन वृद्धि नहीं की गई, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगी।

कोयला ट्रेलर पलटा, ड्राइवर के हाथ-पैर टूटे; यूपी से आ रहा था वाहन

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के जयंत और उत्तर प्रदेश के शक्ति नगर सीमा इलाके में एक कोयले से भरा ट्रिप ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एनसीएल के जयंत नेहरू शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार सुबह करीब 9:30 की है।

वाहन में ही फंसा ट्रेलर ड्राइवर: जयंत चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार ने बताया कि पलटने के बाद ड्राइवर सुरेंद्र प्रसाद ट्रक में ही दब गया था। उसके एक पैर और एक हाथ में दो जगह से फ्रैक्चर हुआ है, साथ ही सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। यह ट्रिप ट्रेलर उत्तर प्रदेश से सिंगरौली जिले में स्थित एक निजी पावर प्लांट के लिए कोयला ले जा रहा था।

लोगों की वाहन से बाहर निकाला, अस्पताल मे कराया भर्ती: स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और आसपास मौजूद लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, जिस सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ, वह सिंगल रोड है और इसमें कई मोड़ हैं। अक्सर तेज गति के कारण यहां हादसे होते रहते हैं। चौकी प्रभारी ने बताया कि चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन कई ट्रेलर ड्राइवर जल्दी कोयला सप्लाई के चक्कर में तेज स्पीड से वाहन चलाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं।

समय -सीमा में भू अर्जन मुआवजा भुगतान के लिए विशेष कैंपों का होगा आयोजन

सीधी। डिप्टी कलेक्टर ने जानकारी देकर बताया कि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना, महान नहर परियोजना, बाणसागर नहर परियोजना, गुलाब सागर परियोजना, संजय टाईगर रिजर्व, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संचालित परियोजनाओं में प्रभावित भूमि एवं उन पर स्थित परिसंपत्तियों का चिन्हांकन कर अवार्ड पारित किया जा चुका है। पारित अवार्ड के अनुसार अधिकांश प्रभावितों को मुआवजा भुगतान भी किया जा चुका है। किंतु यदि किन्हीं कारणों से कुछ प्रभावित हितग्राहियों को मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो उनकी सुविधा एवं परियोजना के समय पर पूर्ण होने के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेष कैम्प का आयोजन आवश्यक है।

बच्चा चोरी का शक, लड़के को खंभे से बांधकर पीटा; पुलिस ने बताया विक्षिप्त

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के जयंत नेहरू बस्ती इलाके में बच्चा चोरी के संदेह में स्थानीय लोगों ने एक लड़के को खंभे से बांधकर पीटा। गुरुवार को इसका वीडियो सामने आया है। युवक बिहार के गया जिले से काम की तलाश में आया था।

स्थानीय रहवासी विनोद कुमार ने बताया कि गया (बिहार) से आए कुछ लोग बच्चा चोरी की फिराक में घूम रहे थे। जयंत बस्ती के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वीडियो में लोग लड़के से जबरन बच्चा चोरी की घटना कबूल कराते दिख रहे हैं। पिटाई के बाद लड़के को जयंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़के का कहना है कि वह गया से अपने 7 साथियों के साथ सिंगरौली जिले में काम करने आया था।

जयंत चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार के अनुसार, लड़का विक्षिप्त लग रहा है। वह अपनी पहचान ठीक से नहीं बता पा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी का आरोप सही नहीं है। पुलिस युवक को बाल कल्याण समिति के पास भेज रही है। मामले की आगे की जांच की जा रही है।

एनएसयूआई के प्रदर्शन पर पुलिस चलाई वाटर कैनन

प्रदूषण-बेरोजगारी का कर रहे थे विरोध, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट घेराव करने जा रहे थे

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारी प्रदूषण, विस्थापन, बेरोजगारी और छात्र हितों की मांगों को लेकर जमा हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 500 से अधिक छात्र, एनएसयूआई कार्यकर्ता और स्थानीय कांग्रेसी नेता कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे। जब छात्र नेताओं ने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछारें कीं।

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि सिंगरौली जिले में भारी उद्योग और कोयला खदानें होने के कारण गंभीर प्रदूषण है। विस्थापन से प्रभावित लोगों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कि यहां रोजगार के कई अवसर हैं, स्थानीय युवा बेरोजगार हैं क्योंकि कंपनियां सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार का 70 फीसदी स्थानीय रोजगार का दावा खोखला है। चौकसे ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार को डर है कि छात्र संगठन से कोई बड़ा चेहरा उभर सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है।

इन सभी मांगों को लेकर एनएसयूआई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इससे पहले, कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एडिशनल कलेक्टर को सौंपा।

गांवों में शुरु हुआ आदिकर्मियों का अभियान

सरकारी टीमें कर रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के मझौली विकासखंड में आदिकर्मियों का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दुधमनिया, चंदौहीडोल और अमोहराडोल सहित तीन गांवों के आदिवासी परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य वंचित परिवारों को मुख्यधारा में लाना है।

सरकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी: ग्राम पंचायत रोजगार सहायक कनक द्विवेदी ने इन गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि यह पहल उन परिवारों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए है, जो अब तक इनसे वंचित थे। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना योजना और पेंशन योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

पात्रतानुसार लोगों से आवेदन करने की अपील: द्विवेदी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे योजनाओं के प्रति सजग रहें और पात्रता के अनुसार आवेदन करें, ताकि उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

मझौली जनपद के सीईओ धनंजय मिश्रा ने बताया कि आदिकर्मियों का अभियान राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य आदिवासी और पारंपरिक समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक टीम लगातार गांवों में सर्वे और जनसंपर्क कर रही है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजनाओं के फायदा से वंचित न रहे।

अमिलिया में दिव्यांग बच्चों हेतु चिकित्सकीय बोर्ड शिविर आयोजित - 25 पंजीकरण में 08 प्रमाणपत्र जारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा के मार्गदर्शन में किशोर न्याय समिति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा के पालनार्थ, जिले के समस्त 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 22 सितम्बर से 14 नवम्बर तक जिलेभर में जांच एवं चिकित्सकीय बोर्ड शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में गुरुवार 16 अक्टूबर को उप स्वास्थ्य केंद्र, अमिलिया में चिकित्सकीय बोर्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 25 बच्चों का पंजीकरण किया गया तथा चिकित्सा परीक्षण उपरांत 08 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यू.डी.आई.डी. कार्ड) जारी किए गए। शिविर में चिकित्सकीय बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. रवि पटेल (मानसिक रोग विशेषज्ञ), डॉ. हिमेश पाठक (नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ), डॉ. अमित सिंह (औषधि रोग विशेषज्ञ) तथा डॉ. के. बी. प्रजापति (अस्थि रोग विशेषज्ञ) द्वारा परीक्षण कार्य संपादित किया गया।

जनपद सिहावल में दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सकीय बोर्ड शिविर आयोजित - 51 पंजीकरण में 15 प्रमाणपत्र जारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा के मार्गदर्शन में किशोर न्याय समिति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा के पालनार्थ, जिले के समस्त 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 22 सितम्बर से 14 नवम्बर 2025 तक जिलेभर में स्क्रीनिंग एवं चिकित्सकीय बोर्ड शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में बुधवार 15 अक्टूबर को जनपद सिहावल में चिकित्सकीय बोर्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 51 बच्चों का पंजीकरण किया गया तथा चिकित्सा परीक्षण उपरांत 15 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यू.डी.आई.डी. कार्ड) जारी किए गए।

शिविर में चिकित्सकीय बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सकों कृ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ, औषधि रोग विशेषज्ञ एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ कृ द्वारा परीक्षण कार्य संपादित किया गया।

शिविर में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), सीधी की टीम के सदस्य दीपक त्रिपाठी, शिवांसु शुक्ला (अंतर्विषयक विशेष शिक्षक) तथा शेषमणि साहू द्वारा संभावित दिव्यांग बच्चों की जांच, दस्तावेज़ सत्यापन एवं अभिभावकों को यू.डी.आई.डी. कार्ड प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

यह अभियान सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखंडों में चरणबद्ध रूप से संचालित किया जा रहा है, ताकि कोई भी दिव्यांग बच्चा शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं से वंचित न रहे।

जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर गांजा पकड़ा, दमोह का युवक उड़ीसा से ला रहा था; एक लाख का माल जब्त

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से एक युवक को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिट्ठू बैग में रखा 5 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया आरोपी दमोह जिले का निवासी लिलेश नामदेव (25 वर्ष) है। वह उड़ीसा से गांजा लेकर दमोह ले जाने की फिराक में था। जीआरपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थ के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा है।

सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी एम. झरिया के नेतृत्व में एक टीम ने प्लेटफॉर्म पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान काले रंग का पिट्ठू बैग लिए एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई, तो बैग से 5 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ।

जीआरपी थाना प्रभारी एम. झरिया ने बताया कि नियमित जांच के दौरान युवक संदिग्ध हालत में दिखा। गांजा जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मंदिर आर्थिकी की दिशा में

संपादकीय

हिमाचल के मंदिरों का सरकारीकरण पहली बार अपनी संवेदना का कानूनी शब्दकोष पढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ताजा निर्देश वर्षों से चल रही वित्तीय व्यवस्था को नैतिकता व सदाशयता की सीमा बता रहे हैं। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ ने मंदिर व्यवस्था के उच्चारण बदलते तथा सारी चढ़त के पैमाने तय करते हुए, खर्च करने का मार्गदर्शन किया है। दरअसल मंदिरों की कमाई आज तक परिभाषित नहीं हुई, जबकि मंदिर आर्थिकी विकसित करने से कई परिवारों को रोजगार, व्यापार को आधार और पर्यटन को चमत्कृत करने का रोड मैप तैयार हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि मंदिर आय की फिजूलखर्ची रुकनी चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि आय के इस स्रोत का सही इस्तेमाल करके हम कम से कम पांच हजार करोड़ की आर्थिकी पैदा कर सकते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर, वैष्णो देवी या शिरडी का साई मंदिर अकेले तौर पर ही पांच से हजार करोड़ की आर्थिकी पैदा कर रहे हैं, तो प्रदेश के कम से कम आठ-दस मंदिर इस हैसियत में हैं कि आय-व्यय के हिसाब को एक बड़ी आर्थिकी की तस्वीर तक ले जाएं। धूमल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी के सी शर्मा की अध्यक्षता में दक्षिण भारतीय मंदिरों की प्रबंधकीय व्यवस्था पर आधारित एक सिफारिशी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। नतीजतन मंदिरों का संचालन एक आधी अधूरी व्यवस्था देख रही है। न कोई कर्मचारी कॉडर बना और न ही प्रबंधन का कोई कोड स्थापित हुआ। आश्चर्य तो यह कि मंदिर व्यवस्था का कोई राज्य स्तरीय पैमाना ही नहीं, लिहाजा हर धार्मिक स्थल पर स्थानीय या क्षेत्रीय राजनीति की पहलवानी होती रही है। मंदिर आय से राजनीतिक खर्चे पूरे होते रहे।

दियोटसिद्ध जैसे मंदिर ट्रस्ट ने अनावश्यक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर रोजगार खरीद लिया, जबकि कई मंदिरों की आय से विकास के नाम पर पैसा जाया होने लगा। माननीय अदालत ने वीआईपी कल्चर की ओर इशारा करते हुए कुछ खर्चे गिनवाए हैं, जहां काजू-किसमिस जैसी खरीद की कड़वाहट घोलती रही है। यहां प्रश्न यह भी तय किया गया कि मंदिर आय का असली वारिस ईश्वरीय स्थापना है। इसका व्यापक अर्थ यह भी हो सकता कि श्रद्धा में आया धन श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च हो। हमें लगता है कि कानूनी दृष्टि में मंदिर विधेयक को विशिष्टता के साथ आज के संदर्भ में सार्थक बनाने पर बहस होनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रबंधकीय हिसाब से एक केंद्रीय ट्रस्ट या मंदिर विकास प्राधिकरण का गठन करके स्थायी कॉडर व इंतजाम करना होगा।

विश्व शांति का दिव्यास्त्र अहिंसा

कांतिलाल मांडोत

इजराइल हमास युद्ध पर पूर्ण विराम से मध्य पूर्व में शांति हमास इजराइल में 738 दिन के बाद स्थायी युध्द विराम के तुरंत बाद सभी बंधकों को छोड़ दिया।इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल संसद को सम्बोधित किया।रिहा हुए इजराइली बंधकों से मिलकर परिजन भावुक हो गए।वह दृश्य वेदना देने वाला था।दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई पर खुशी झलक रही थी।दो साल से इजराइली सेना ने हमास पर हमला किया।हजारो लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए।करोड़ो की सम्पति नष्ट हुई।लेकिन परिणाम शून्य आया।आज विश्व मे दो सौ देश है।सभी राष्ट्रों का अपना धर्म, अपनी परम्परा और अपनी संस्कृति है।उनके रास्ट्रीय आदर्श है।वे अपने आदर्श नही त्यागते है,फिर हमें आदर्श त्यागने की जरूरत क्या है।देश मे हिंसा करने की शासकीय स्वीकृति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर कालिख पोतने के समान है।धर्म को जाने बिना अहिंसा का ज्ञान नही हो सकता। हम धर्म को समझकर ही धार्मिक बन सकते है।इतने वर्षो से विदेशो में गृहयुद्ध चल रहे है।लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नही हुआ।सभी युद्रस्त देश ज्यादा उलझते गए है।क्योंकि युद्ध से आज दिन तक कोई समस्या का समाधान होता नही दिखा है।क्योंकि हिंसा अन्यायपूर्ण है।ईरान इराक,इजराइल हमास,रूस युक्रेन ,भारत पाकिस्तान आदि अनेक देश युद्ध कर चुके है।लेकिन नतीजा वो ही ढाक के तीन पात वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती दिखाई देती है।कोई भी देश अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए यदि हिंसा का सहारा लेते है तो उनके जैसा मूर्ख कौन होगायुद्ध को त्यागकर देश के विकास की तरफ ध्यान देना होगा।रूस युक्रेन युद्ध मे क्या खोया क्या पायायुक्रेन नाटो की मदद से लड़ता रहा और दोनो देश तबाही के दंश झेल रहे है।अपनी मनमानी और जिद् में दोनो देश बर्बाद हो गए।खरबो डालर का धुआं कर सम्पति को राख में तब्दील करके शांति धारण कर बैठ गए।विश्व शांति का दिव्यास्त्र अहिंसा है।युद्ध स्थायी समाधान नही है।आज अहिंसा का स्थान हिंसा ने,आचार का स्थान अनाचार ने और शांति के स्थान पर अशान्ति ने अपने पैर फैला दिए है।दो देशो के बीच बिगड़ते रिश्ते के साथ ही युद्ध पर उतारू हो जाते है।युद्ध से निर्दोष लोगों की जाने जाती है।जानमाल की क्षति होती है।जीवन मे युद्ध को भूलकर शांति का सुमार्ग ढूंढना है तो हमे सर्वप्रथम धर्म के आंगन में उतरना होगा।धर्म को किसी एक परिभाषा में नही बांधा जा सकता है।अहिंसा के समान कोई धर्म नही है।अहिंसा परम् धर्म है।अहिंसा दिव्यास्त्र है।महात्मा गांधी ने स्वराज पाने का अपना भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन चलाया और उन्हें अपने कार्य मे पूर्ण सफलता भी मिली।कुछ नासमझ लोग हिंसा को सर्वोपरि मानते है क्योंकि वे अहिंसा से परिचित नही है।वे कहते है कि आज के युग मे अहिंसा की बात कैसे सोची जा सकती है,

लेकिन अहिंसा तो जीवन जीने की सिख देती है।युद्ध थोपे गए,निर्दोषों के शवों पर राजनीति की गई ,लेकिन भारत और पाकिस्तान, रूस-युक्रेन,ईरान इराक इजराइल और हमास जैसे युद्रस्त देशों के वहा किसी समस्या का समाधान हुआ हैनिर्दोष के लहू से सियासत की राजनीति के पीछे सच्चाई कुछ और बयां कर रही है।

धर्म को जानने वाला अहिंसा का पथ कभी नही त्याग सकता है।रूस के राष्ट्रपति व्लदीमिर पुतिन महत्वकांक्षी व्यक्ति है।क्योंकि मन मे अहंकार जागृत हो जाता है तो उसी क्षण मानव की प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाता है।क्योंकि पुतिन को इस बात का अहंकार था कि युक्रेन के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी है।रूस शक्तिशाली देश है।लेकिन चार साल तक युक्रेन ने रूस का बराबर मुकाबला किया तब अहसास हुआ कि मेरी सोच गलत थी।दोनो देश बर्बाद हो गए।क्योकि जहाँ अहंकार जागृत हो जाता है,वही व्यक्ति स्वयं को शिखर समझने लगता है।हमास ने सबसे पहले इजरायल पर हमला किया।उसके जवाब में इजराइल ने दो साल तक युद्ध थोपे रखा।जब तक अंहकार की हवा भरी हुई रहती है,तब तक आदमी उछलता रहता है।सच्चाई का पता चलेगा तब अहसास होगा कि जीवन के सुनहरे पल हमने गंवा दिए है।मान और अहंकार ने हम भी इतिहास पढ़ चुके है कितने राज्य नष्ट किये है।कितने परिवार नष्ट हुए है।

भारत में आज भी कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे सभी विषय पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के साल 2024-25 के आधिकारिक डेटा के मुताबिक देश के कुल 1,04,125 स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं एवं सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता ही नहीं रहा है बल्कि चिन्ताजनक स्थिति को बयां कर रहा है। ये आंकड़े हमारे शैक्षणिक विकास पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।

एक लाख एकल शिक्षक स्कूलों की त्रासदी से त्रस्त शिक्षातंत्र

- ललित गर्ग -

शिक्षा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य आज भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक कसक बनकर उभरता है। जब शिक्षा की आत्मा घायल होती है तो राष्ट्र का शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता।

शिक्षा मंत्रालय के ये हालिया आंकड़े बताते हैं कि एकल शिक्षक स्कूलों में करीब पौने चौंतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाना एक भ्रष्टाचार ही है। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? एकल शिक्षक स्कूलों का परिदृश्य भारत के विकास की पोल खोलने वाला है। भले ही एकल शिक्षक स्कूलों में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई हो, फिर इतनी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों का होना हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी को ही उजागर कर रहा है। यह स्थिति किसी एक आंकड़े की नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की गहरी त्रासदी की तस्वीर है।

कल्पना कीजिए-एक शिक्षक जो प्रशासनिक काम भी करता है, मिड-डे मील की निगरानी भी करता है और साथ में सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। क्या वह शिक्षक शिक्षक रह जाता है या व्यवस्था का बोझ उठाने वाला मज़दूर बन जाता है? इन बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, जिनके लिए ज्ञान का एकमात्र द्वार ही थकान, उपेक्षा और तंगहाली से भरा है? यह संकट केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ विषय विशेषज्ञों की कमी, प्रयोगशालाओं की अनुपस्थिति और शिक्षण संसाधनों का अभाव है। नई शिक्षा नीति 2020 समग्र शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब आधारभूत ढाँचा ही अपूर्ण हो तो नीतियाँ केवल दस्तावेज़ बनकर रह जाती हैं। हम 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, पर क्या एकल शिक्षक स्कूलों की यह स्थिति उस दिशा में कोई सार्थक कदम का संकेत है?

यह विडंबना है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है,

पर उसके बचपन की शिक्षा का यह हाल है। शिक्षा पर सरकारी व्यय जीडीपी का केवल 2.9 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह 5 से 6 प्रतिशत तक है। जब शिक्षा ही निवेश नहीं बनेगी, तो विकास का आधार कहाँ से आएगा? समस्या केवल शिक्षक संख्या की नहीं, बल्कि शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और संसाधनों की भी है। राज्यों में नियुक्ति प्रक्रियाएँ वर्षों तक लटकी रहती हैं, स्थानांतरण नीति अव्यवस्थित है, और जो शिक्षक हैं भी, उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति, डिजिटल शिक्षण, नवाचार और नैतिक मूल्य आधारित शिक्षण के प्रशिक्षण से वंचित रखा गया है। यह स्थिति उस समय और अधिक विडंबनापूर्ण लगती है जब हम हर मंच पर नया भारत, विकसित भारत और विश्वगुरु भारत के नारे लगाते हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखने की आवश्यकता है। रक्षा और स्वास्थ्य की तरह शिक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो, दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों का समुचित समायोजन किया जाए, तकनीक के माध्यम से डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो और शिक्षकों को केवल वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माता के रूप में सम्मान मिले। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हमें भारत को पुनः महान बनाना है, तो शिक्षा को पुनः मानवीय बनाना होगा। आज शिक्षा केवल परीक्षा और नौकरी तक सीमित हो गई है, जबकि उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण और विवेक जागरण होना चाहिए। यदि 34 लाख बच्चे एकल शिक्षक के भरोसे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। भारत तभी विकसित होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा-सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में शिक्षित होगा। अन्यथा, एकल शिक्षक की यह पीड़ा आने वाले भारत की मौन त्रासदी बन जाएगी। शिक्षक दीपक की तरह होते हैं, वे स्वयं जलकर समाज को प्रकाश देते हैं। पर जब दीपक ही अकेला रह जाए, तो अंधकार स्वाभाविक है। अब समय है कि हम इस अंधकार को दूर करने का संकल्प लें, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र का भविष्य है और शिक्षक उस भविष्य के निर्माता हैं।

सोचने वाली बात है कि एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएं कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेलकूल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों एवं योग-व्यायाम जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली इन गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं और ऐसी बीमार बुनियाद पर खड़ा राष्ट्र कैसे स्वस्थ, सक्षम एवं उन्नत होगा? शिक्षा के प्रति यह उपेक्षा हमारे सत्ताधीशों की संवेदनहीनता का भी पर्याय है। शिक्षकों की नियुक्ति में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले विभिन्न राज्यों में सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की प्रदूषित कार्य संस्कृति का बोध होता है। आखिर क्या वजह है कि देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति हमारे तंत्र की विफलता को ही उजागर करती है। एक समस्या यह भी है कि शिक्षक जटिल भौगोलिक स्थितियों वाले स्कूलों में काम करने से कतराते हैं। यदि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वे दुर्गम से सुगम स्कूलों में अपना तबादला ज्वाइन करने के तुरंत बाद करवा लेते हैं। जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर विभागीय लेन-देन की भी शिकायत होती रहती है। यही वजह है कि शहरों व आसपास के इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत से ज्यादा भी देखी जाती है।

कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सड़कों पर बेरोजगारों की लाइन लगी हैं और स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बताया जाता है कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े आठ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। कहने को तो हमारे गाल बजाते नेता भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहते इतराते हैं, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कुंठित होती युवा पीढ़ी के लिये उन्होंने क्या खास किया है? नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं है। तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में ऐसी त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों का होना देश के नीति-निर्माताओं एव नायकों के लिये शर्म का विषय होना चाहिए।

रावण हैं हम!

यदि बंद कमरों में बैठे रहकर काम करने पर, सैर न करने पर, स्वास्थ्यकर भोजन न लेने पर, पूरी नींद न लेने पर या ऐसे ही किसी और कारण से ब्लडप्रेशर हो जाए, शूगर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए तो दवाइयां लेकर भी हम जीवन भर के लिए दवाइयों के गुलाम ही रहते हैं और मजबूरन कई सारे परहेज करने पड़ते हैं।

पीके खुराना

डॉक्टरों के चक्कर काटकर, पैसे खर्च करके, जीवन भर के लिए बीमारी मोल लेकर और दवाइयों के गुलाम बनकर अगर हम खुश होते हैं तो यह सुविधा नहीं, हमारी नासमझी है और इस नासमझी पर खुश होने का कोई कारण नहीं है। चुनाव हमारा है कि खुद अपने ही लिए हम रावण बनकर अपना नुकसान खुद करते हैं या आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखकर परमात्मा के दिए इस शरीर का पूरा लाभ उठाकर अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं

हम अक्सर अपने आप में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद ही खुद से अनजान रहते हैं। हमारी अपनी जरूरत क्या है, इसे भी नहीं समझ पाते। आज के समाज में जितनी भी व्याधियां हैं, इनके मूल में हमारा अज्ञान ही तो है। हम इतने मूढ़ हैं कि अपने ही शरीर की आवश्यकताओं के बारे में अनजान हैं, अपने ही मन की आवश्यकताओं के बारे में अनजान हैं। हमारा शरीर और मन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। मन खराब हो तो शरीर सुस्त पड़ जाता है और शरीर में दर्द हो या बीमारी हो, तो मन शिथिल हो जाता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें इन दोनों को जानना और समझना हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। अलग-अलग वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हुआ है कि हमारी पूरी त्वचा सांस लेती है, ऑक्सीजन भीतर खींचती है और कार्बन डाईऑक्साइड बाहर छोड़ती है, सिर्फ हमारी नाक ही नहीं। अगर हमारे शरीर पर मोटा रंग पोत दिया जाए और भीतर-बाहर सांस लेने की सारी संभावना रोक दी जाए और केवल हमारी नाक खुली रहे तो हम शायद तीन-चार घंटे में ही मर जाएं। सिर्फ नाक से काम नहीं चलता, नाक सबसे जरूरी अंग है, लेकिन खुद अकेला नाक ही पर्याप्त नहीं है। हमारा पूरा शरीर लगभग सात अरब जीवित कोशिकाओं से बना है।

उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, उन सबको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे कपड़े इस प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। हमारे कपड़े हमारे मित्र नहीं हैं। लेकिन हजारों वर्षों से कपड़े पहनने के कारण हमारा शरीर दुर्बल हो गया है, बदलते मौसम की मार बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए हमें उन्हें पहनना पड़ता है। सामाजिक वर्जनाओं के कारण भी वस्त्रहीन रहना संभव नहीं है, पर बीच-बीच में, जब मौसम अनुमति दे और आसपास कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति न हो हमारे वस्त्रहीन होने से जिसकी भावनाएं आहत होती हों, तब वैसे ही, जैसे भगवान ने हमें भेजा था, पूर्णतः वस्त्ररहित रहकर हम जीवन की, यौवन की और ताजगी की एक नयी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। सूरज हमारा मित्र है। हवा हमारी मित्र है। वर्षा हमारी मित्र है। हमारे कपड़े हमारे शत्रु हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम दुर्बल हो चुके हैं, हमें कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। आज का मनुष्य सबसे दुर्बल प्राणी है और कपड़ों को सभ्यता की निशानी मान लिया गया है, इसलिए भी हमें कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। कपड़े पहनें मगर बीच-बीच में शरीर को उसके स्वाभाविक अधिकार का आनंद उठाने का अवसर भी दें। हमारे शरीर में कहीं दर्द हो, हमें जुकाम हो जाए या बुखार हो जाए तो हम फटाफट डाक्टर के पास जाकर दवाई लेना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर का दर्द, जुकाम या बुखार तो सिर्फ संदेशवाहक हैं, वे हमें कुछ बताना चाहते हैं, पर हम हैं कि दवा लेकर संदेशवाहक को ही मार डालते हैं। लंकानरेश दशकंधर रावण ने भी यही किया था। दशानन रावण के अपने छोटे भाई विभीषण ने रावण को सीख देनी चाही कि वह जनकसुता वैदेही माता सीता जी को दयानिधि भगवान रामचंद्र जी के पास ससम्मान वापस भेजकर प्रभु की शरण में चला जाए, परंतु अहंकारी रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। वह मानो ऐसा ही था कि शरीर में दर्द हुआ और डाक्टर के पास जाकर कोई पेनकिलर ले लिया।

पवनपुत्र बजरंगबली हनुमान जी ने भी उसे सीख देनी चाही, पर अहंकारी रावण ने क्या किया? दशमुख रावण ने हनुमान जी को साधारण बंदर जानकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। मजे की बात यह है कि पूंछ में लपेटने के लिए कपड़ा और रूई रावण के, उस पर लगने वाला घी और तेल रावण का, आग जलाने के लिए अंगार रावण का और लंका जली रावण की। हम भी तो यही करते हैं। बुखार हो जाए तो उसे संदेशवाहक मानने के बजाय हम डाक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब डाक्टर की फीस भी हम देते हैं, दवा का पैसा भी हम खर्च करते हैं, इस सब में समय भी हम लगाते हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, वह भी हमारी ही है, जो भविष्य के लिए हमारी सेहत की खराबी का कारण बनती है। हमारा शरीर एक पूरी फार्मेसी है, दवाखाना है, लेकिन हम अपने ही शरीर पर विश्वास नहीं करते, शरीर की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते और अज्ञानता तथा लापरवाही के कारण डॉक्टर के पास भागे चले आते हैं। इस अर्थ में अगर देखें तो हम सब भी रावण ही हैं जो खुद ही अपना नुकसान करने पर आमादा हैं। अपनी इस अज्ञानता या अहंकार में हम यह भूल जाते हैं कि सेहत हमारा सबसे बड़ा खजाना है। सेहत है तो हम स्वतंत्र हैं और सेहत खराब हुई तो हम अपने परिवार के सदस्यों की सहायता पर निर्भर हो जाएंगे, या छोटी से छोटी बातों के लिए भी डॉक्टर, नर्स, केयरटेकर आदि पर निर्भर हो जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता बाधित होगी और पैसा खर्च होगा, सो अलग। सैर करना, घूमना-फिरना, पहाड़ों पर जाना, अच्छे भोजन का स्वाद लेना, ये सब कुछ तभी संभव होता है अगर सेहत अच्छी हो। हमारी सेहत वह चाबी है जो कई ताले खोल सकती है। अपनी सेहत की उपेक्षा करके तो हम जीवन के आनंद की उपेक्षा कर डालते हैं, और फिर भी खुद को शिक्षित, सभ्य और सामर्थ्यवान मानते हैं। सुविधा होने पर शरीर को आवश्यक रोशनी और हवा का आनंद देना, नियमित सैर अथवा व्यायाम करना, ताजा शुद्ध और स्वास्थ्यकर भोजन लेना हमारी सेहत की गारंटी है। इसके विपरीत यदि बंद कमरों में बैठे रहकर काम करने पर, सैर न करने पर, स्वास्थ्यकर भोजन न लेने पर, पूरी नींद न लेने पर या ऐसे ही किसी और कारण से ब्लडप्रेशर हो जाए, शूगर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए तो दवाइयां लेकर भी हम जीवन भर के लिए दवाइयों के गुलाम ही रहते हैं और मजबूरन कई सारे परहेज करने पड़ते हैं। डॉक्टरों के चक्कर काटकर, पैसे खर्च करके, जीवन भर के लिए बीमारी मोल लेकर और दवाइयों के गुलाम बनकर अगर हम खुश होते हैं तो यह सुविधा नहीं, हमारी नासमझी है और इस नासमझी पर खुश होने का कोई कारण नहीं है। चुनाव हमारा है कि खुद अपने ही लिए हम रावण बनकर अपना नुकसान खुद करते हैं या आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखकर परमात्मा के दिए इस शरीर का पूरा लाभ उठाकर अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं। यह शिक्षा परिवार से शुरू होनी चाहिए, बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए।

युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित करने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार 150 यूनिटी मार्च

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का आयोजन, देशभर में होंगे विविध कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रव्यापी सरदारञ्च150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक श्री नवीन मारकंडेय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक तनूजा सलाम भी इस दौरान मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2025 को

सरदारञ्च150 यूनिटी मार्च (Sardar@150 nit 4 March) की शुरुआत की है। यह भारत सरकार और 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) की पहल है, जो लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।साव ने बताया कि 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस अभियान का डिजिटल शुभारंभ 'मेरा युवा भारत' पोर्टल (MY Bharat Portal) पर किया है। इस चरण में सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सरदारञ्च150 यंग लीडर्स प्रोग्राम (Sardar@150Young Leaders Program) शामिल हैं। इसमें सरदारञ्च150 यंग लीडर्स प्रोग्राम के 150 विजेताओं को राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरदारञ्च150 यूनिटी मार्च के तहत आगामी 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएँ होंगी। हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में तीन दिनों तक 8ङ्क10 किमी लंबी पदयात्रा होगी। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों को प्रेरित करने के लिए स्कूल, कॉलेजों में अलग-अलग निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक जैसी प्री-इवेंट गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनके साथ ही युवाओं के बीच नशामुक्त भारत शपथ, संस्थानों में स्वदेशी मेलों का आयोजन, गर्व से स्वदेशी संकल्प भी दिलाएं जाएंगे।

श्री साव ने बताया कि राष्ट्रीय पदयात्रा के अंतर्गत 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक सरदार पटेलजी के जन्म स्थान करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया तक 152 किमी की पदयात्रा निकाली जाएगी। रास्ते में पड़ने वाले गाँवों में सामाजिक विकास के कार्यक्रम होंगे, जिनमें मेरा युवा भारत (MY Bharat), एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स और युवा लीडर भाग लेंगे। इस दौरान 150 पड़ावों पर सरदार पटेल के जीवन पर विकसित भारत की प्रदर्शनी और भारत की विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरदारञ्च150 यूनिटी मार्च के तहत सभी पंजीकरण और गतिविधियाँ MY Bharat Portalhttps://m4bharat.go1.in/pages/unit 4_march पर हो रही हैं। श्री साव ने सभी युवाओं से इस ऐतिहासिक पहल से जुड़कर सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

90 लीटर महुआ शराब और 50 किलो लाहन जब्त छिंदगांव जंगल में आबकारी विभाग की कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राजनांदगांव जिले में मदिरा के अवैध निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध जांच पड़ताल एवं कार्रवाई का अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम छिंदगांव जंगल क्षेत्र में 90 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब तथा 50 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया।

प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले में मदिरा के अवैध विक्रय पर रोकथाम हेतु होटल, ढाबों और मदिरा दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। सभी वृत्त प्रभारियों को अवैध शराब विक्रेताओं, भंडारणकर्ताओं तथा सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक बिलासपुर रीजन में 5969 आवेदन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 5 हजार 969 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 930 उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसी तरह 628 उपभोक्ताओं को उनकी सब्सिडी की राशि का भुगतान शासन द्वारा कर दिया गया है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में कार्यशालाएं और शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है।

पूर्व के पजीकृत आवेदनों पर प्लांट स्थापना का कार्य शीघ्रः कार्यपालक निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर ने योजना के सफल और त्वरित क्रियान्वयन हेतु अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं एवं सोलर वेंडरों को निर्देशित किया है कि वे सम्मिलित प्रयासों से लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है, जिन्होंने पूर्व में पंजीयन कराया है, ताकि शीघ्र सोलर प्लांट स्थापना का कार्य पूरा हो सके।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर ने बताया कि बिलासपुर रीजन में प्राप्त 5969 आवेदनों में से कोरबा वृत्त के 1395, बिलासपुर नगर वृत्त के 1526 तथा बिलासपुर (संचा./संधा.) वृत्त के 3048 उपभोक्ता सम्मिलित हैं। इनमें से 930 उपभोक्ताओं के घरों में सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और 628 उपभोक्ता शासन की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सोलर प्लांट स्थापना के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। बिलासपुर रीजन के 21 उपभोक्ताओं के बिजली बिल अब ÷जीरो बिल में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे योजना की सफलता और उपयोगिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहनी-तिलहनी फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान दक्कस्रद्ग के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत गत वर्ष राज्य के 18 जिलों में 152 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए थे। इन केन्द्रों का उद्देश्य कृषकों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों का विक्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित कराना है। कृषि विभाग खैरागढ़ के उपसंचालक राजकुमार सोलंकी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में उत्पादित अरहर, उड़द एवं मसूर फसलों का शत-प्रतिशत उपार्जन तथा मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, चना और सरसों का 25 प्रतिशत उपार्जन किया जाता है। केन्द्र सरकार की प्रापण संस्थाएं नाफेड एवं एन.सी.सी.एफ. इस कार्य को संचालित करती हैं। कृषकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत उपज विक्रय के इच्छुक कृषक को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है, जिसमें समीपस्थ उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकता है। यदि किसी जिले में उपार्जन केन्द्र सीमित हैं, तो कृषक अन्य जिले के उपार्जन केन्द्र में भी अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ में उत्पादित मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीदी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इसके उपरांत खरीफ की अरहर एवं रबी की चना, मसूर एवं सरसों फसलों का उपार्जन किया जाएगा। प्रत्येक अधिसूचित फसल की उपार्जन अवधि 90 दिवस निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर जिले के कलेक्टर के प्रस्ताव पर इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

यह योजना न केवल किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहायक है, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उपज के अधिक मूल्य प्राप्ति में भी सहायक है। इससे फसल विविधिकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य एक फसलीय कृषि से बहुफसलीय कृषि की ओर अग्रसर होगा। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला उप संचालक कृषि से जिलेवार फसल रकबा, संभावित उत्पादन, उपार्जन एवं भंडारण केन्द्रों के निर्धारण संबंधी जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर उपार्जन केन्द्र निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही, कृषकों को योजना के लाभ से अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से बिट्टू का संवर रहा भविष्य

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे श्रमिक के पुत्र बिट्टू कुशवाहा ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे जिले के नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना ने श्रमिक परिवारों के सपनों को नई दिशा दी है। बिट्टू कुशवाहा ने कक्षा 10 वीं के परीक्षा में राज्य में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई तथा नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत बिट्टू कुशवाहा लाभान्वित हुआ।

बिट्टू कुशवाहा को मिला नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजनाः बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड कुसमी के ग्राम नवाडीह निवासी कमलेश कुशवाहा जो श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक है, जो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहा। अपनी सीमित आय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बेटे की शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी। परिणामस्वरूप बिट्टू कुशवाहा ने अपनी मेहनत ओर लगन से कक्षा 10 वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप 10 (मेरिट) में अपनी जगह बनाई तथा नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत बिट्टू कुशवाहा लाभान्वित हुआ। उन्हें कुल 2 लाख रुपये की शैक्षणिक सहायता राशि प्रदान की गई। जिसमें 1 लाख रुपये वाहन के लिए एवं 1 लाख रुपये शिक्षा सहायता राशि दी गई। इस आर्थिक सहयोग से बिट्टू उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सकेगा।

श्रमिक परिवार के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने अनेक योजनाएंः बिट्टू ने बताया कि मेरे पिता ने हमेशा मेहनत करना सिखाया है और वे कहते हं कि निरंतर कोशिश करने वालों को कभी निराशा नहीं होना चाहिए। बिट्टू कहता है कि मेहनत करना पिता से सीखा तो वहीं सपनों को पूरा करने का उम्मीद शासन की योजनाओं से संभव हो रहा हैं। वह बताता है कि वाहन के लिए प्राप्त राशि से उसने स्कूटी खरीदा और आगे नीट की तैयारी कर रहा है, ताकि चिकित्सक बनकर क्षेत्र में जाकर अपनी सेवाएं दे सके। बिट्टू के पिता श्री कमलेश कुशवाहा भावुक होकर कहते हैं कि पहले लगता था ।

दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ा, धान के रकबे में हुई कमी

किसानों में बढ़ा भरोसा-अब दलहन, तिलहन फसलों की ओर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में विगत वर्ष धान की बंपर पैदावार के बावजूद अब किसानों में पारंपरिक फसलों के साथ अन्य फसलों की ओर रुझान बढ़ने लगा है। कोरिया जिले के किसान अब धान के अलावा दलहन, तिलहन की खेती में भी रुचि ले रहे हैं, जिससे फसल विविधीकरण की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। किसानों में अब दलहन, तिलहन फसलों की ओर भरोसा बढ़ा है। कृषि विभाग कोरिया से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2024-25 में जिले में 33 हजार 842 हेक्टेयर में धान की बुवाई की गई थी, जबकि वर्तमान खरीफ वर्ष 2025-26 में 32 हजार 920 हेक्टेयर में धान बोया गया हैं। इस प्रकार 922 हेक्टेयर क्षेत्रफल में (2.75 प्रतिशत) कमी दर्ज की गई है।

जिले में दलहन और तिलहन फसलों के रकबे में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई है। विगत वर्ष 9 हजार 194 हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई थी, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 9 हजार 730 हेक्टेयर हो गई है यानि 536 हेक्टेयर (5.82 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 में 1 हजार 874 हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुवाई हुई थी, जबकि वर्तमान वर्ष में यह बढ़कर 2 हजार 272 हेक्टेयर तक पहुँच गई है यानी तिलहन की खेती में 398 हेक्टेयर (21.23 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है।

मूंगफली फसल की बात करें तो इसमें भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 933 हेक्टेयर में मूंगफली बुवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 1 हजार 520 हेक्टेयर हो गई है । इस तरह मूंगफली फसल की बुआई में 587 हेक्टेयर (38.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश के किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ही यह परिणाम है कि अब जिले के किसान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिले के किसान धान के अलावा दलहन, तिलहन फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने में रूचि ले रहे हैं। आने वाले समय में कोरिया जिला दलहन-तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिलों में शामिल होगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अध्यक्ष ने शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाओं की हुई गहन समीक्षा

पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा आई.ए.एस. (से.नि.) केबिनेट मंत्री (दर्जा) ने कहा कि पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सभी विभागों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सशक्त समाज की कल्पना अधूरी रहेगी। आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में विश्वकर्मा ने विभागवार योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ा जाए।

बैठक में आयोग के सदस्य

यशवंत सिंह वर्मा, बलदाऊ राम साहू, हरिशंकर गुप्ता, कलेक्टर डी. राहुल वेंकट, जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग का गठन किया गया है। देश में जाति जनगणना की शुरुआत वर्ष 1932 में हुई थी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 95 जातियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में 33 प्रतिशत और पंचायतों में 57 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग की है, जो समाज की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्रवृत्ति, स्वरोजगार ऋण और शैक्षणिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी, वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य अंत्यावसायी सहकारी निगम के माध्यम से दी जा रही ऋण सहायता और मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

ग्राम पंचायत चैनपुर में पोषण माह का समापन

गोदभराई और अन्नप्राशन कार्यक्रमों ने दिया संतुलित आहार व स्वस्थ जीवन का संदेश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। ग्राम पंचायत चैनपुर में आज पोषण माह का समापन समारोह बड़े उत्साह और सहभागिता के साथ मनाया गया। एक माह तक चले इस अभियान ने न केवल माताओं और बच्चों में पोषण के महत्व को उजागर किया, बल्कि पूरे ग्राम को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुधार की दिशा में नई चेतना भी दी।

दीप प्रज्वलन से हुई शुरुआतः कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि सरपंच मीना कुमारी ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। उन्होंने उपस्थित माताओं को संतुलित आहार अपनाने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की।

उपस्थित रहे जनप्रतिनिधि व अधिकारीः समारोह में उपसरपंच मदन, पंच राजकुमारी, बबली सिंह, हीराकली, सेक्टर सुपरवाइजर शिल्पा अग्रवाल और स्वच्छता समन्वयक प्रभा पयासी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हुईं।

पोषण माह की झलकियाँः सेक्टर सुपरवाइजर शिल्पा अग्रवाल ने 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक चले पोषण माह की गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस अवधि में गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान, पौष्टिक आहार संबंधी गोष्ठियाँ और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को समाप्त करना और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना रहा।

गोदभराई और अन्नप्राशन ने बढ़ाया उत्साहः समापन अवसर पर 8 गर्भवती माताओं की गोदभराई की गई। इनमें राजकुमारी, पूनम, कमल, अन्नू, सरिता, उर्मिला, सुनैना और पूर्णिमा शामिल थीं। वहीं 4 शिशुवती माताओं - बसंत, प्राची, सुनैना और रानी - के बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। इन अवसरों पर माताओं को बच्चों के भोजन में संतुलित आहार और विशेषकर मुनगा भाजी को नियमित रूप से शामिल करने की सलाह दी गई।

सामाजिक संदेश - बाल विवाह मुक्त पंचायतः कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक स्वर से अपने पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की शपथ ली।

हर महीने एक हजार रुपए बन रहा आत्मनिर्भरता का आधार

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना आज महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की नई राह बना रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित यह योजना नारी सम्मान और गरिमा का प्रतीक बन चुकी है। रायगढ़ जिले में अब तक 3 लाख 15 हजार 78 महिलाओं के खातों में 523 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरण की जा चुकी है। दीपावली से पहले जारी 20वीं किस्त के तहत 25 करोड़ 38 लाख 75 हजार रुपए की राशि भी महिलाओं को मिली है। हर माह मिलने वाले एक हजार रुपए ने महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी है। ग्राम आमापाली की पुष्पा महंत बताती हैं कि योजना से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च संभालना आसान हुआ है। मुस्तरी बेगम और दुरपति बरेठ कहती हैं कि यह योजना उनके जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता का आधार बनी है।राज्य की कई महिलाएं अब इस राशि को बीज पूंजी बनाकर छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई-सेंटर, किराना दुकान और हस्तशिल्प कार्य शुरू कर रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सशक्त महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की नींव है।महतारी वंदन योजना आज छत्तीसगढ़ की महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मान की नई पहचान बन गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू

राजधानी में राज्योत्सव के शुभारंभ के साथ नई विधानसभा भवन का होगा लोकार्पण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 01 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड ÷शांति शिखर÷ का शुभारंभ और सत्य साईं हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे।

अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 31 अक्टूबर की रात्रि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। इन आयोजनों के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी जाए। बैठक में कलेक्टर श्री गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन, कमिश्नर रायपुर श्री महादेव कावरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह सहित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी

उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान और पार्किंग की व्यवस्था कर ली जाए। इसी प्रकार राज्योत्सव मेला स्थल और अन्य कार्यक्रमों के स्थल पर पार्किंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि नया रायपुर के चौक-चौराहों को व्यवस्थित और सौंदर्यीकरण कर ली जाए। राज्योत्सव मेला स्थल में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए को सेक्टरों में बांटकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कार्यक्रम के दौरान सतत् रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी जाए। इसी प्रकार साउंड सिस्टम उच्च गुणवत्तायुक्त हो। साथ ही दूर संचार विभाग के अधिकारियों को संचार व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने तीन विशाल डोम बनाएं जा रहे हैं। जिनमें 60 एलईडी स्क्रीनिंग लगाए जाएंगे। मेला स्थल पर लोगों बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के प्रवेश के लिए दो द्वार होंगे। एक द्वार विभागीय प्रदर्शनी के लिए होगा। विभागीय प्रदर्शनी में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के नजदीक ही डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेला स्थल पर प्रधानमंत्री आवास का मॉडल भी बनाया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्योत्सव मेला स्थल के दोनों तरफ 20-20 हजार वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य शहरों से रायपुर पहुंचने वाले मार्गों पर भी पार्किंग, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा रही है। राज्योत्सव मेला स्थल पर 300 शौचालय बनाए जाएंगे।

बंधक बनाकर लूट करने वाले चार चोर गिरफ्तार

दो नाबालिग शामिल; पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया

रतलाम, एजेंसी। रावटी थाना अंतर्गत बंधक बनाकर लूट करने व चोरी की दो अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने गुरुवार को पकड़ लिया। चोर गांव के रहने वाले निकले। सीसीटीवी नहीं होने से पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आसपास पूछताछ की तो चोरों को पता चल पाया। पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा है जिनमें दो नाबालिग हैं।

सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल ने बताया कि 2 अक्टूबर की रात अज्ञात आरोपियों ने रवि डामर निवासी रानीसिंग के घर की दीवार लोहे के सरिये से तोड़कर घुसे थे। परिवार को बंधक बनाकर धमकाते हुए 60 हजार रुपए नगद, चांदी के आभूषण (कड़ा, हाथफूल, मंगलसूत्र, बिछुड़ी आदि) चोरी कर लिए थे।

इसी प्रकार 5 अक्टूबर की रात नीलेश सोनी की दुकान का शटर उचकाकर सात हजार नकद एवं चांदी की झुमकियां चोरी की। चार दिन बाद फिर 9 अक्टूबर को गांव में मुकेश मालीवाड़ और सुनील मचार की गुमटियों के ताले तोड़कर नकली आभूषण, कपड़े व अन्य सामग्री चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। थाना रावटी में अलग-अलग केस दर्ज कर चोरों की तलाश के लिए टीम बनाई गई।

चोरी का सामान भी जब्त

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिंगर प्रिंट टीम, सायबर टीम एवं थाना रावटी की संयुक्त कार्रवाई के तहत घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी दीपक मंडलोई, सैलाना थाना प्रभारी सुरेश गडरिया के नेतृत्व में जांच टीम द्वारा जमीनी पुलिसिंग, मुखबिर तंत्र एवं सतत निगरानी से संदिग्धों की पहचान की।

लगातार प्रयासों से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपने दो अन्य साथियों के साथ तीनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया सामान भी जब्त कर लिया है।

इन्हें किया गिरफ्तार

दो 16 वर्षीय किशोर।

इनकी रही भूमिका

चोरों को पकड़ने में रावटी थाना प्रभारी के अलावा सब इंस्पेक्टर पीएस हटीला, एमआई खान, एएसआई गणेश शर्मा आदि समेत सायबर टीम का की भूमिका रही।

छेड़छाड़ के आरोपी के सुसाइड केस में एफआईआर युवती, उसकी बहन और जीजा ने किया था प्रताड़ित

नर्मदापुरम,एजेंसी। नर्मदापुरम में छेड़छाड़ के आरोपी अंकित गौर के सुसाइड केस में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि अंकित को एक युवती, उसकी बहन और जीजा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

इसी से तंग आकर अंकित ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पुलिस ने मालाखेड़ी निवासी युवती, उसकी बहन और जीजा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। मामले में तीनों आरोपी फरार हैं।

बता दें 10 अक्टूबर को अंकित के खिलाफ महिला थाने में युवती ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। अगले दिन 11 अक्टूबर को अंकित गौर युवती के घर के सामने जाकर हंगामा कर रहा था। युवती के परिजन ने उसे महिला थाने लेकर आए थे।

बाद में युवक ने महिला थाने से चला गया।

विवेकानंद घाट पर मिला था अंकित गौर का शव

एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने बताया कि जहाजपुरा निवासी अंकित गौर ने 12 अक्टूबर विवेकानंद घाट पर सुसाइड किया था। शाम को उसका शव मिला था। 13 अक्टूबर को पोस्टमॉर्टम के दौरान जिला अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर युवती, उसकी बहन और जीजा पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।

इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच की। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी यह सामने आया कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था। पुलिस ने बताया कि जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उनमें जमानत नहीं मिलती। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को केंद्रीय जेल भेजा जाएगा।

11 अक्टूबर को युवती के घर के सामने जाकर गाली गलौज करने पर परिजन ने अंकित गौर को पकड़कर महिला थाने लेकर आए थे। महिला थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और न नोटिस दिया गया।

18 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, परिजन खेत से लौटे तो घर में फांसी पर लटकी मिली

बैतूल, एजेंसी। भड़ूस गांव में बुधवार शाम एक 18 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी की पहचान प्रतिभा के रूप में हुई, वह कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने गुरुवार को जिला अस्पताल में उसका पोस्टमॉर्टम कराया।पुलिस के अनुसार, घटना के समय प्रतिभा के परिजन खेत में मक्का तोड़ने गए हुए थे। जब वे घर लौटे, तो उन्होंने प्रतिभा को घर के पिछले कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।

एएसआई प्रवीण पचौरी ने बताया कि प्रतिभा ने बुधवार दोपहर परिजनों के साथ भोजन किया था और तब तक उसका व्यवहार सामान्य था। शाम को जब परिजन खेत से लौटे, तो उन्हें यह घटना मिली।

जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल भेजा, जहां छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।पुलिस के अनुसार, आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रतिभा का एक भाई भोपाल में पढ़ाई करता है।

खेत पर करंट लगने से किसान की मौत

रबी सीजन के लिए सर्विस लाइन ठीक करने गया था, खेती के साथ मार्केटिंग करता था

खंडवा,एजेंसी। आज (गुरुवार) एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। वह रबी सीजन की तैयारी के बीच सर्विस लाइन को दुरुस्त करने खेत पर पहुंचा था। जहां सर्विस लाइन में एक ज्वाइंट था, भविष्य में लाइन फॉल्ट का खतरा न हो, इसलिए किसान नए सिरे से ज्वाइंट बनाने लगा। किसान को पावर ऑन है, इस बात का अंदाजा नहीं रहा और करंट ने चपेट में ले लिया।

घटना शहर से सटे नागचून ग्राम पंचायत के तहत आने वाले ग्राम बड़गांव भीला की है। किसान महावीर उर्फ गोलू राजपूत (35) अपने खेत पर गया था। परिजन के अनुसार, महावीर खेती के अलावा खंडवा की एक ईंट फैक्ट्री में मार्केटिंग और पैसा कलेक्शन

का काम करते थे। महज दो एकड़ जमीन में इतनी पैदावार नहीं हो पाती कि परिवार का भरण-पोषण कर सकें, इसलिए वह खेती के साथ मार्केटिंग करते थे। महावीर, सुबह 10 बजे ड्यूटी के लिए अपने घर से निकलते इससे पहले घर व खेती के काम निपटाते। हाल ही में खेत में सोयाबीन की फसल बोई थी, जिसमें काफी नुकसान हो गया। महावीर खेत पर सीजन की तैयारी के बीच सर्विस लाइन को ठीक करने पहुंचा। तभी सर्विस लाइन में ज्वाइंट दिखा तो फॉल्ट के अंदेशे को भांपते हुए उन्होंने तत्काल ठीक करना उचित समझा। लेकिन इस दौरान चालू लाइन होने के चलते करंट ने उन्हें चपेट में ले लिया।

ग्रामीण पहुंचे तब तक जान चली गई, परिवार में दो बच्चे

परिजनों ने बताया कि महावीर को खेत में कुएं के पास करंट लगा था। उसी कुएं के पास से दूसरे खेतों के लिए जाने का रास्ता है। करंट लगने के बाद महावीर जब तड़प रहा था, तभी गांव का एक बुजुर्ग किसान अपने खेत पर जा रहा था। उन्होंने महावीर को तड़पते हुए देखा लेकिन न तो उनके पास मोबाइल था कि गांव में किसी को फोन लगा दें। बुजुर्ग दौड़ते-भागते हुए गांव में पहुंचा और महावीर के बारे में सूचना दी। ग्रामीण और परिजन खेत पर पहुंचे, तब तक महावीर की सांसें थम गई थीं। इधर, महावीर के परिवार में मां, पत्नी और दो बच्चे हैं। एक बेटा और बेटी है, जो मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं।

20 दिन के नवजात की मौत-आरोप बंगाली डॉक्टर ने गलत दवा दी

मुंह से ऑक्सीजन देते दिखे परिजन

छतरपुर, एजेंसी। छतरपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 20 दिन के एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे की मौत का कारण गलत इलाज को बताया है। बच्चे को जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद भी परिजन उसे मुंह से ऑक्सीजन देकर बचाने की कोशिश करते रहे। यह देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। परिजनों ने एक बंगाली डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है।

जुकाम होने पर बंगाली डॉक्टर के पास ले गए थे:लखरावन गांव निवासी भारत अहिरवार ने बताया कि उनके 20 दिन के भतीजे को दो दिन से हल्का बुखार और जुकाम था। गुरुवार सुबह बच्चे की मां शिवकुमारी उसे इलाज के लिए कोटा में एक बंगाली डॉक्टर के पास ले गईं। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवा के कुछ देर बाद ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी।

निजी अस्पताल ने इलाज से किया इनकार:हालत बिगड़ने पर परिजन तुरंत बच्चे को बाइक से एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद वे बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर अभय सिंह ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत का कारण:वहीं, जिला अस्पताल के डॉ. अभय सिंह ने बताया कि नवजात को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

खाद के लिए रातभर लाइन में खड़े रहे किसान-सीहोर में किसान ने कहा खाद नहीं दे सकते तो जहर ही दे दो

हमें अन्नदाता से अंधेदाता बना दिया

सीहोर, एजेंसी। सीहोर जिले में किसान खाद की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। सहकारी समितियों के बाहर किसानों को रातभर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। घंटों की मशक्कत के बाद मुश्किल से एक-दो बोरी खाद मिल पाती है।

रातभर लाइन में खड़े रहे किसान

खाद की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण रबी सीजन की बुवाई का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों में गहरी निराशा है और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ताजा मामला बोरदी कलां गांव का है, जहां खाद की कमी के चलते किसान सहकारी समिति परिसर में रातभर लाइन में खड़े रहे। प्रशासनिक अव्यवस्था के बीच जब खाद वितरण शुरू हुआ, तो पुलिस जवानों को व्यवस्था संभालनी पड़ी।

किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया

किसानों का कहना है कि उन्हें खाद की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि शासन-प्रशासन इस समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकाल रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोसायटियों में खाद की आपूर्ति कम है, जबकि बाजार में इसकी जमकर कालाबाजारी हो रही है और व्यापारी महंगे दामों पर खुलेआम खाद बेच रहे हैं।

खाद नहीं दे सकते तो जहर ही दे दो- किसान

कुछ किसानों ने हताशा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि शासन-प्रशासन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं करा सकता, तो कम से कम सल्फास जहर ही दे दे, ताकि उन्हें रोजमर्रा की इस जद्दोजहद से छुटकारा मिल सके।

11 बोरियों में रखा 1 क्विंटल नकली मावा जब्त, सागर में मिठाई दुकान पर कार्रवाई

मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं थी

सागर, एजेंसी। दीपावली पर्व को देखते हुए सागर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। बुधवार रात खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने राहतगढ़ बस स्टैंड स्थित भोले स्वीट्स और शर्मा स्वीट्स पर कार्रवाई की। मिष्ठान दुकानों पर जांच करने अमानक मिठाइयां और मावा मिला, जिनके सैंपल लिए गए हैं।

तहसीलदार संदीप तिवारी ने बताया कि राहतगढ़ बस स्टैंड स्थित श्री भोले स्वीट्स की दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान मौके से बेसन के लड्डू की चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जांच कराई गई। इसमें अखाद्य रंग की पुष्टि होने पर 7 किलो बेसन के लड्डू को जब्त किया गया।

मावा की बर्फी, मिल्क केक, कलाकंद के सैंपल लिए गए। इसके अलावा नरेंद्र पाठक द्वारा संचालित शर्मा स्वीट्स पर भी कार्रवाई की गई। जांच करने पर पाया गया कि प्रतिष्ठान पर 10-10 किलो की 11 नकली मावा की बोरियां उपयोग के लिए रखी गई थीं। जिनकी जांच की गई और वे अमानक पाई गईं।

इनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और कंपनी का कोई भी नंबर नहीं पाया गया। खाद्य अधिकारी प्रीति राय ने बताया कि प्रतिष्ठानों से लिए गए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

विहिप, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी ने निकाली शक्ति यात्रा

मंदसौर के पिपलियामंडी में सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने लिया भाग

मंदसौर, एजेंसी। मंदसौर के पिपलियामंडी में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप), बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने संयुक्त रूप से एक शक्ति यात्रा का आयोजन किया। पथ संचलन में सैकड़ों युवतियों और महिलाओं ने भाग लिया। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से शुरू होकर अयोध्या बस्ती, टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर और गांधी चौराहा सब्जी मंडी सहित नगर के मुख्य मार्गों से गुजरा। यात्रा का समापन वापस विद्यालय परिसर में हुआ। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

ये रहीं मुख्य अतिथि

कार्यक्रम के मुख्य मंच पर मालवा प्रांत की संयोजिका ज्योतिप्रिया शर्मा, मंदसौर विभाग की संयोजिका टीना शर्मा और सरस्वती शिशु मंदिर की अध्यक्ष बंटू भूत मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बंटू भूत ने की। इस अवसर पर मातृशक्ति जिला संयोजिका शांति रावल, प्रखंड अध्यक्ष मनोहर मनवानी, विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला और विहिप जिला सह मंत्री निलेश जैन भी उपस्थित थे।

पुलिस बल रहा तैनात

यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी और चौकी प्रभारी धर्मेश यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने पूरे मार्ग पर निगरानी रखी और यातायात व्यवस्था को संभाला। कार्यक्रम का संचालन जिला विद्यार्थी प्रमुख तनिषा डाबी ने किया, जबकि दिव्य कुमावत ने आभार व्यक्त किया।

लोडिंग वाहन डिवाइडर पर चढ़ा, बिजली पोल गिरा-चालक ने पत्ता टूटने वजह बताई,अगला टायर भी पंचर हुआ

रायसेन, एजेंसी। रायसेन-सागर मार्ग पर गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे शासकीय आदर्श कन्या स्कूल के सामने एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में नगर पालिका का एक बिजली का पोल गिर गया और एलईडी लाइट टूट गई। वाहन चालक नानालाल ने बताया कि वह उज्जैन से सिलवानी जा रहे थे। फिलहाल, नगर पालिका के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचकर टूटे पोल को हटाकर किनारे कर चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है।

अगला पहिया भी पंचर हुआ

लोडिंग वाहन के चालक नानालाल ने बताया, ÷सड़क पर जाते समय वाहन के पत्ते टूट गए। इससे वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकरा गया। वाहन का अगला पहिया भी पंचर हो गया था।

बिजली के पोल को हटा कर किनारे किया

नगर पालिका के कर्मचारियों ने सड़क पर गिरे बिजली के पोल को हटा कर किनारे कर दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी और वाहन स्थल से हटाया गया।

लोडिंग वाहन चालक नशे की हालत में था

नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि लोडिंग वाहन चालक नशे की हालत में था। यही कारण है कि वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हराया, तीसरे क्वार्टर में बदला मैच का रुख

जोहोर (मलेशिया), एजेंसी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 के पूल-स्टेज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से कप्तान रोहित (22') और अर्शदीप सिंह (60') ने गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्कर स्प्रूल (39', 42'), एंड्रयू पैट्रिक (40') और कप्तान डिलन डाउनी (51') ने गोल दागे।

पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन भारत ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण रखते हुए खेल की गति तय की। शुरुआती पलों में ऑस्ट्रेलिया को गोल करने का मौका मिला, मगर गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने शानदार बचाव किया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने 17वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन अनमोल एक्का का प्रयास बार के ऊपर चला गया। 22वें मिनट में मिले दूसरे कॉर्नर पर कप्तान रोहित ने सटीक हिट लगाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। 25वें मिनट में अमीर अली ने शानदार सोलो रन के बाद शॉट लिया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर ने रोका।

तीसरे क्वार्टर में मैच का रुख पलट गया — ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीन गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। 39वें मिनट में ऑस्कर स्प्रूल ने बराबरी का गोल किया, उसके तुरंत बाद (40') एंड्रयू पैट्रिक ने रिबाउंड पर दूसरा गोल दागा। 42वें मिनट में स्प्रूल ने फिर शानदार बैकहैंड शॉट से अपना दूसरा गोल किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे निकल गया। 49वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन कप्तान रोहित का शॉट चूक गया। 51वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान डिलन डाउनी ने अपनी टीम का चौथा गोल दागा। मैच के आखिरी मिनट में अर्शदीप सिंह ने शानदार डिफ्लेक्शन से भारत के लिए दूसरा गोल किया, जिससे मुकाबला 2-4 पर समाप्त हुआ।

ओलंपिक चैंपियन तैराक एरियन टिटमस ने संन्यास की घोषणा की

ब्रिस्बेन, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया की चार बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा कर खेल प्रेमियों को चौंका दिया है। 25 वर्षीय टिटमस ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक खेलों के बाद ब्रेक लिया था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि वह 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक की तैयारी के लिए प्रतिस्पर्धी तैराकी में लौटेंगी। टिटमस ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा, मुझे तैराकी शुरू से पसंद रही है। जब मैं छोटी थी, तब से यह मेरा जुनून रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ चीजें तैराकी से थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, और मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में टिटमस ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में अमेरिका की केटी लेडेकी और कनाडा की समर मैकिन्टोश को पीछे छोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना खिताब बरकरार रखा। इसके अलावा, उनके नाम पर 200 मीटर फ्रीस्टाइल का भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। टिटमस ने अपने करियर में 33 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें ओलंपिक में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं, साथ ही उन्होंने चार विश्व खिताब भी अपने नाम किए हैं।

रोहित शर्मा के निशाने पर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रच सकते हैं इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अपने जमाने के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी, जो दुनिया भर में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे, अब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के निशाने पर हैं। आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 से 25 अक्टूबर तक होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरेंगे। यदि वे इस सीरीज में 8 छक्के लगा देते हैं, तो वे शाहिद अफरीदी के लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में 273 मैचों की 265 पारियों में 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 264 रनों की शानदार पारी भी शामिल है। उनके नाम 32 शतक और 58 अर्धशतक हैं। रोहित ने 1,045 चौके और 344 छक्के जड़े हैं, जिसके साथ वे वर्तमान में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में शाहिद अफरीदी के बाद दूसरे स्थान पर हैं। रोहित ने अपने करियर में तीन दोहरे शतक भी बनाए हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है।

वहीं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने 398 वनडे मैचों की 369 पारियों में 8,064 रन बनाए। उनके खाते में 6 शतक, 39 अर्धशतक, 730 चौके और 351 छक्के दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित का बल्ला चला तो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का यह रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकता है। भारतीय फैंस भी चाहेंगे कि रोहित इस दौरे पर पाकिस्तानी क्रिकेटर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर शीर्ष पर पहुंचे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहले मैच के साथ शुरू होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में दूसरा और 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरा और अंतिम वनडे खेला जाएगा।

इस बार भारतीय टीम नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के युवा नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उतरेगी। गिल, जो अब तक टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे थे, अब वनडे टीम की कमान भी संभालेंगे।

रोहित शर्मा और विराट कोहली की करीब छह महीने बाद वनडे टीम में वापसी से भारतीय टीम को मजबूती मिली है। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम का संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ा है।

बता दें कि आगामी सीरीज रोहित शर्मा के लिए न केवल एक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है, बल्कि भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपनी बादशाहत साबित करने का भी अवसर है।

डेनमार्क ओपन 2025: लक्ष्य सेन और सत्विक-चिराग ने प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

कोपेनहेगन, एजेंसी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पुरुषों की डबल्स जोड़ी सत्विकसायराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी ने डेनमार्क ओपन 2025 के प्री-क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन ने आयरलैंड के नाथ गुयेन को 10-21, 21-8, 21-18 से हराया, जबकि सत्विक-चिराग ने स्कॉटलैंड की जोड़ी क्रिस्टोफर और मैथ्यू ग्रिमली को 17-21, 21-11, 21-17 से मात दी। लक्ष्य सेन, जो पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट हैं, ने पहले गेम में धीमी शुरुआत की और 10-21 से हार गए। लेकिन दूसरे गेम में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए केवल 8 पॉइंट्स गंवाए और मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचाया। अंतिम गेम में दोनों खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन लक्ष्य सेन ने अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए मैच अपने नाम किया। यह लक्ष्य सेन की नाथ गुयेन के खिलाफ चौथे मैचों में से तीसरी जीत है। पुरुषों की डबल्स में, छठे सीड सत्विक-चिराग ने पहले गेम में हार के बावजूद दूसरे गेम में वापसी की और निर्णायक गेम में शानदार प्रदर्शन कर प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई।

रणजी ट्रॉफी - स्कोरबोर्ड में बड़ी गलती, सरफराज और मुशीर खान से जुड़ा है मामला

श्रीनगर। घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई की टीम जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सीजन का पहला मैच श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है। मुंबई की टीम में मुशीर खान और सरफराज खान खेल रहे हैं। दोनों भाई हैं। मैच के दौरान दोनों भाइयों को लेकर बीसीसीआई से एक बड़ी गलती हो गई। बीसीसीआई की गलती चर्चा का विषय बनी हुई है। मैच में टॉस जम्मू-कश्मीर ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने मुशीर खान और आयुष म्हात्रे आए। पारी की तीसरी ही गेंद पर मुशीर खान बिना खाता खोले आउट हो गए। बीसीसीआई की वेबसाइट पर मुशीर खान की जगह सरफराज खान का नाम लिखा था। यह बड़ी गलती थी। सरफराज मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं; वे पारी की शुरुआत करने आए भी नहीं थे। ऐसे में बीसीसीआई की वेबसाइट के स्कोरबोर्ड पर मुशीर की जगह सरफराज का नाम होना एक बड़ी गलती है। स्कोरबोर्ड पर मुशीर की जगह सरफराज का नाम था और उन्हें औकिब नबी की गेंद पर शून्य पर आउट दिखाया गया था। बाद में इस गलती को सुधार लिया गया। पहले दिन के खेल की समाप्ति के समय मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर 336 रन बना लिए थे। सिद्धेश लाड ने शतक लगाया। वो 156 गेंद पर 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 116 रन बनाकर आउट हुए। शम्स मुलानी 125 गेंद पर 79 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ आकाश आनंद 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। आयुष म्हात्रे 28, अजिंक्य रहाणे 27, और सरफराज खान 42 रन बनाकर आउट हुए।

आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, पर्थ में उतरने से पहले कोहली का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल

नई दिल्ली, एजेंसी । भारतीय क्रिकेट टीम 3 और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। पहले वनडे सीरीज खेली जानी है। पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। वनडे सीरीज में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जो लगभग छह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। पर्थ वनडे से पहले विराट कोहली का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं। इस पोस्ट को एक घंटे के भीतर लाखों लोगों ने देखा और सैकड़ों प्रशंसकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। विराट के फैंस ने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि हम आपके साथ हैं और 2027 तक आपको टीम इंडिया में खेलते हुए और विश्व कप की ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा कई तरह की मीम्स भी सामने आए हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में, 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे एडिलेड ओवल में और 25 अक्टूबर को तीसरा वनडे सिडनी में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी, जिसमें कोहली नहीं होंगे। टी20 विश्व कप 2024 के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था।

इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोहली पहली बार राष्ट्रीय टीम के लिए वनडे में वापसी कर रहे हैं। टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद, कोहली का ध्यान अब पूरी तरह से वनडे क्रिकेट पर है। इस सीरीज में कोहली नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेंगे, जिन्हें वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। गिल ने रोहित शर्मा की जगह ली है। रोहित ने भी टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित इस सीरीज में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलेंगे। विराट कोहली की वापसी से भारतीय प्रशंसकों में उत्साह की लहर है। यह सीरीज न केवल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, बल्कि कोहली और रोहित जैसे दिग्गजों के भविष्य के लिए भी अहम है।

वेक्टर एक्स बना आईएसबीए वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का एथलीट किट पार्टनर

नई दिल्ली। भारत के अग्रणी स्पोर्ट्स ब्रांड, वेक्टर एक्स ने समावेशी खेलों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन (आईबीएफएफ) के साथ साझेदारी की है। कंपनी आईएसबीए वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के लिए अब आधिकारिक एथलीट किट पार्टनर है। इस साझेदारी को खास बनाता है वेक्टर एक्स का आईबीएफएफ के साथ चल रहा सहयोग, जिसके तहत कंपनी ने साउंड बॉल तैयार की है। यह एक ऐसी अनोखी फुटबॉल है, जो विशेष रूप से दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए बनाई गई है। इस बॉल में आवाज़ वाले उपकरण और लो-बाउंस ब्लैडर लगाए गए हैं, जिससे खिलाड़ी गेंद की आवाज़ के जरिए खेल को समझ और नियंत्रित कर सकते हैं। इस नवाचार ने देशभर के दृष्टिबाधित फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खेल को अधिक सुलभ और रोमांचक बना दिया है। वर्ष 2016 में स्थापित आईबीएफएफ भारत में ब्लाइंड फुटबॉल की राष्ट्रीय शासी संस्था है और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। इस संस्था ने देश के 24 राज्यों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में अहम् भूमिका निभाई है और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत की मौजूदगी को मजबूत बनाया है। आईबीएफएफ के डायरेक्टर सुनील मैथ्यू ने कहा, ब्लाइंड फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। वेक्टर एक्स हमारे लिए सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि ऐसा साथी है, जो हमारे खिलाड़ियों का साथ देता है और उनके लिए लगातार नवाचार करता है। वेक्टर एक्स के मार्केटिंग हेड, बलजिंदर पाल सिंह ने कहा, हर खिलाड़ी उस उपकरण का हकदार है, जो उसे ताकत दे, प्रेरित करे और उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाए। वेक्टर एक्स साउंड बॉल खिलाड़ियों को आवाज़ के सहारे खेलने की सुविधा देता है, जिससे मैदान एक ऐसी सिम्फनी बन जाता है जिसमें हुनर, हिम्मत और सटीकता की झंकार होती है।

वेक्टर एक्स और आईबीएफएफ मिलकर यह साबित कर रहे हैं कि समावेशिता कोई विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य है। यह साझेदारी ब्रांड्स, फेडरेशंस और प्रशंसकों के लिए एक संदेश है कि यह खूबसूरत खेल सबका है।

नेपाल और ओमान ने टी20 विश्व कप 2026 में जगह बनाई

मस्कट, एजेंसी। नेपाल और ओमान ने एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी जगह बना ली है। यूएई की समोआ पर जीत के साथ ही नेपाल और ओमान की विश्व कप में जगह सुनिश्चित हो गई। ग्रुप चरण में अपराजित नेपाल ने सुपर सिक्स में दो अंक हासिल किए और यूएई और कतर के खिलाफ दो अंतिम गेंद वाले रोमांचक मुकाबले जीते। एक दिन बाद, रोहित पौडेल की टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया। 148 रनों का बचाव करते हुए, नेपाल मुकाबले से बाहर लग रहा था क्योंकि कतर 12 ओवर में 97/1 पर पहुँच गया था, लेकिन संदीप लामिछाने के 5-18 के शानदार स्पेल ने कहानी पलट दी। लेग स्पिनर की धारदार गेंदबाजी ने कतर को 10 रनों से हरा दिया, जिससे नेपाल को एक यादगार जीत मिली और 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया।

ओमान ने नेपाल की निरंतरता को दोहराया, सुपर सिक्स चरण में भी दो अंक हासिल किए। उन्होंने कतर के खिलाफ 172 रनों का आराम से बचाव किया और फिर यूएई के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला जीता। इस बीच, समोआ पर शानदार जीत के बाद यूएई अंतिम क्वालीफिकेशन स्थान के लिए दावेदारी में बना हुआ है, जिससे उसे 16 अक्टूबर को जापान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में जगह बनाने में मदद मिलेगी। अमीराती टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर है, जबकि कतर के पास अभी भी एक मौका है। उसे समोआ को हराना होगा, अन्य परिणामों की उम्मीद करनी होगी, और नेट रन रेट के आधार पर प्रतियोगिता में आगे निकलना होगा।

आईसीसी रैंकिंग: टेस्ट, वनडे, और टी20 में शीर्ष 10 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की सूची

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे, टी20) की रैंकिंग जारी की। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जहां टेस्ट फॉर्मेट में पांचवें स्थान पर पहुंचे हैं, वहीं अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान आठ स्थान की छलांग लगाते हुए वनडे फॉर्मेट के दूसरे श्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं। शीर्ष पर शुभमन गिल हैं। टी20 में भारत का दबदबा है। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा तो गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं। आईए जानते हैं कि आईसीसी द्वारा बुधवार को जारी रैंकिंग में टेस्ट, वनडे और टी20 में कौन-कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज शीर्ष दस में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। टेस्ट (बल्लेबाज)

1. जो रूट (इंग्लैंड), 2. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड), 3. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), 4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), 5. यशस्वी जायसवाल (भारत), 6. टेंबा बवुमा (दक्षिण अफ्रीका), 7. कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका), 8. ऋषभ पंत (भारत), 9. डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड), 10. बेन डकेट (इंग्लैंड)

टेस्ट (गेंदबाज): 1. जसप्रीत बुमराह (भारत), 2. कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका), 3. मैट हेनरी (न्यूजीलैंड), 4. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया), 5. जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया), 6. नोमान अली (पाकिस्तान), 7. स्कॉट बोलैंड (ऑस्ट्रेलिया), 8. नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया), 9. मार्को यानसेन (दक्षिण अफ्रीका), 10. मिचेल स्टॉर्क (ऑस्ट्रेलिया)

वनडे (बल्लेबाज): 1. शुभमन गिल (भारत), 2. इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान), 3. रोहित शर्मा (भारत), 4. बाबर आजम (पाकिस्तान), 5. विराट कोहली (भारत), 6. डेरिल मिचेल (भारत), 7. चरिथ असालंका (श्रीलंका), 8. हैरी टैक्टर (आयरलैंड), 9. श्रेयस अय्यर (भारत), 10. शाई होप (वेस्टइंडीज)

वनडे (गेंदबाज): 1. राशिद खान (अफगानिस्तान), 2. केशव महाराज (दक्षिण अफ्रीका), 3. महिश तिक्षाणा (श्रीलंका), 4. जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड), 5. कुलदीप यादव (भारत), 6. बर्नार्ड स्कोल्ट्ज (नामीबिया), 7. मिचेल सेंटनर (न्यूजीलैंड), 8. आदिल राशिद (इंग्लैंड), 9. मैट हेनरी (न्यूजीलैंड), 10. रवींद्र जडेजा (भारत)

टी20 (बल्लेबाज): 1. अभिषेक शर्मा (भारत), 2. फिल साल्ट (इंग्लैंड), 3. तिलक वर्मा (भारत), 4. जोस बटलर (इंग्लैंड), 5. पथुम निसांका (श्रीलंका), 6. ट्रेविस हेड (श्रीलंका), 7. टिम सिफर्ट (न्यूजीलैंड), 8. सूर्यकुमार यादव (भारत), 9. कुसाल परेरा (श्रीलंका), 10. मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया)

टी20 (गेंदबाज): 1. वरुण चक्रवर्ती (भारत), 2. अकील हुसैन (वेस्टइंडीज), 3. राशिद खान (अफगानिस्तान), 4. एडम जांपा (ऑस्ट्रेलिया), 5. जैकब डफी (न्यूजीलैंड), 6. आदिल रशीद (इंग्लैंड), 7. वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका), 8. अबरार अहमद (पाकिस्तान), 9. नुवान तुषारा (श्रीलंका), 10. कुलदीप यादव (भारत)।

सिंगल विलेज स्कीम से घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य 15 दिसंबर तक पूर्ण करें : प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव ने रीवा संभाग के जल जीवन मिशन के कार्यो की समीक्षा की

मीडिया ऑडिटर , सतना (निप्र)। राज्य शासन के प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी नरहरि ने कहा कि जल जीवन मिशन भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से क्रियान्वित महत्वपूर्ण योजना है। मिशन का उद्देश्य एकल एवं सामूहिक नल जल योजनाओं के माध्यम से शत-प्रतिशत घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। प्रमुख सचिव ने गुरूवार को सतना कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रीवा संभाग के 6 जिलों में क्रियान्वित जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिलों में रिवीजन की सिंगल विलेज स्कीम को छोडकर पूर्व की सभी स्वीकृत सिंगल विलेज स्कीम का कार्य गुणवत्ता के साथ 15 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण किया जाये। इस मौके पर कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, मुख्य अभियंता संजय कुमार अंधवान,अपर कलेक्टर विकास सिंह, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर इन चीफ परियोजना निदेशक जल जीवन मिशन, मुख्य महाप्रबंधक जल जीवन मिशन, मुख्य अभियंता, अधीक्षण, कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी तथा उपयंत्री उपस्थित थे। संभागीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव पी नरहरि ने रीवा संभाग के सभी जिलों रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सिंगरौली, सीधी के उपखण्ड स्तर पर क्रियान्वित किये जा रहे जल जीवन मिशन की सहायक यंत्री वार समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सिंगल विलेज स्कीम की पूर्ण योजनाओं को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोहपूर्वक ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के अधिकारियों और लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के समन्वय के साथ नल जल योजनाओं में कमी को ठेकेदार के माध्यम से दूर कराये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंगल विलेज स्कीम का कार्य 93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष 7 प्रतिशत कार्य को ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय के साथ ठेकेदारों से पूर्ण कराये। प्रमुख सचिव ने कहा कि रीवा में 30695, मऊगंज में 16242, सतना में 3857, सीधी में 11273, सिंगरौली में 12769 एफएच टीसी किये जाने शेष है। उपखण्डवार कार्य योजना बनाकर एक माह के अंदर लक्ष्य पूर्ति करना सुनिश्चित कराये। ग्रामीण क्षेत्रों की नल जल योजना में ग्रामीण विकास विभाग की सहभागिता अवश्य ले। सीईओ जिला पंचायत और जनपद पंचायत सिंगल विलेज स्कीम की निरंतर मानीटरिंग करें। पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हैण्ड ओव्हर की कार्यवाही जल महोत्सव के रूप में मनाये। रीवा संभाग में कुल 1495 एकल नल जल योजनायें है। जिनमें 811 नल जल योजना के गांव हर घर जल घोषित हो चुके हैं। इनमें 470 सिंगल विलेज स्कीम ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी है। पाइप लाइन बिछाने में 892 किमी सडक तोडकर लाइन बिछाई गई है। जिसमें 889 किमी लम्बाई का रोड रेस्टोरेशन कर दिया गया है। प्रमुख सचिव ने कहा कि रेस्टोरेशन के दौरान गांवों की सडक मोटरेबल बनाये रखे तथा हाइड्रो टेस्टिंग के बाद सडक को पूर्ववत स्वरूप की बनाई जाये। प्रमुख सचिव ने कहा कि जल मिशन के कार्यो में धरती आबा अभियान तथा पीएम जन मन योजना के गांवों को विशेष प्राथमिकता दें। प्रमुख सचिव ने जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही मल्टी विलेज स्कीमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मल्टी विलेज स्कीम के कार्यों को जनप्रतिनिधियों, मीडिया और ग्रामीण विकास के अधिकारियों को मौके पर जाकर दिखाये। सतना बाणसागर परियोजना फेज-1 में मैहर जिले के गोरसरी पहाड से पानी लाने के लिए 1.2 किमी लम्बी टनल बनाई गई है। परियोजना के तहत किये जा रहे बेहतर कार्यो का प्रचार-प्रसार करे। प्रमुख सचिव ने जल निगम की मल्टी विलेज स्कीम रीवा बाणसागर, टमस सतना पीआईयू की सतना बाणसागर फेज-1, फेज-2, पीआईयू सीधी की सीधी बाणसागर, गुलवार सागर, मझौली पीआईयू सिंगरौली की बैढ़न-1, बैढ़न-2 गोद देवसर की विस्तृत समीक्षा की।

शादी का झांसा देकर युवती का अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

मीडिया ऑडिटर , सतना (निप्र)। नागौद पुलिस ने युवती के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी विजय कुमार प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने करीब एक माह पहले युवती को शादी का झांसा देकर भगाया था। टीआई अशोक पांडेय ने बताया कि 11 सितंबर को एक युवती घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की थी।

मुखबिर की सूचना पर मिली: लगातार एक महीने की खोजबीन के बाद 14 अक्टूबर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर युवती को बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि गुलुवा-पवइया (थाना कोठी) निवासी विजय कुमार (25), पुत्र दद्दू प्रसाद प्रजापति उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया था।

दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गईं, आरोपी जेल भेजा गया: युवती के बयान के आधार पर आरोपी पर दैहिक शोषण के आरोप भी जोड़े गए। इसके बाद पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

अपहरण कर पीटा, नशीली गोली खिलाई; मीटर कंपनी के कर्मचारी से मोबाइल-नकदी लूटी

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के एक कर्मचारी के अपहरण, मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने 12 अक्टूबर को 23 वर्षीय कर्मचारी को बगहा बाइपास से अगवा कर लिया। उसे एक मंदिर में ले जाकर नशीली गोली खिलाई गई, उसके साथ मारपीट की गई और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। अगले दिन आरोपियों ने उसे दोबारा घेरकर नकदी और मोबाइल लूट लिया। बुधवार को पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो इसी दिन रात में सामने आया है। मंदिर ले जाकर की मारपीट, खिलाई नशीली गोली पीड़ित सनी कुशवाहा (23) निवासी मुख्त्यारगंज ने पुलिस को बताया कि 12 अक्टूबर की सुबह कुछ लोगों ने उसे बगहा बाइपास से अगवा कर लिया। आरोपी उसे व्यंकटेश मंदिर ले गए, जहां उसके साथ जमकर मारपीट की गई और नशीली गोली खिला दी गई। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया।

अगले दिन फिर घेरा, लूटे पैसे और मोबाइल: अगले दिन जब पीड़ित किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो उन्हीं आरोपियों ने उसे फिर से घेर लिया। इस बार उन्होंने पीड़ित से नकदी और उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए।

2 पटवारियों का शराबखोरी करते वीडियो सामने आया

मीडिया ऑडिटर , सतना (निप्र)। जिले की मझगवां तहसील में दो पटवारियों का शराब पीते हुए वीडियो गुरुवार को सामने आया। वीडियो में सेलौरा हल्का के पटवारी अनिल रावत और झखौरा हल्का के पटवारी समयलाल कोल साफ दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो एक किसान ने बनाया था। मामले में मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने संज्ञान लेते हुए दोनों पटवारियों को सस्पेंड कर दिया। किसान ने आरोप लगाया कि दोनों पटवारी पैसे लेने के बावजूद उसके खेत से जुड़े काम में टालमटोल कर रहे थे। दोनों पटवारी निलंबित ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से शिकायत की और कहा कि दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए।

कामदगिरि परिक्रमा पथ खाली कराया गया,भिक्षाटन करते मिले 53 बुजुर्ग वृद्धाश्रम जाने को तैयार नहीं

मीडिया ऑडिट ,सतना (निप्र)। सतना कामदगिरि परिक्रमा पथ को बुधवार को खाली कराया गया। सामाजिक न्याय विभाग की टीम ने नगर परिषद चित्रकूट और अतिक्रमण दस्ते के साथ मिलकर परिक्रमा पथ का सर्वे किया, जहाँ भिक्षाटन करते हुए 53 बुजुर्ग मिले। इन सभी बुजुर्गों ने वृद्धाश्रम जाने से इनकार कर दिया। बुजुर्गों का तर्क था कि परिक्रमा पथ पर उन्हें पैसे मिलते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, कई बुजुर्गों को उनके बच्चे ही परिक्रमा पथ पर छोड़ जाते हैं।

बुजुर्गों को समझाने का प्रयास किया: टीम ने बुजुर्गों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। अंतत: परिक्रमा पथ को खाली कराया गया। भिक्षाटन कर रहे बुजुर्गों को चेतावनी दी गई है कि वे दोबारा परिक्रमा पथ पर न बैठें। ऐसा पाए जाने पर पुलिस की टीम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में सख्ती के बाद वहां के बुजुर्ग भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आकर भिक्षाटन करते हैं। इस कार्रवाई में डॉ. अमर सिंह चंदेल, राजू चंद्रवंशी, राजेंद्र सोनी, निधि मिश्रा और शिवानी शुक्ला शामिल रहे।

मनोहर धाम में वर्सी महोत्सव की धूम, संतों का हुआ शुभ आगमन

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सिन्धी कॉलोनी स्थित मनोहर धाम में सदगुरु बाबा मनोहर शाह साहब का वर्सी महोत्सव महंत स्वामी संतोखदास उदासीन के सानिध्य में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आश्रम के सेवादारी विनोद गेलानी ने बताया कि गुरुवार को प्रात: 9:30 बजे सत्संग हुआ, इसके बाद 10:30 बजे सामूहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत स्वामी खिम्यादास, महंत स्वामी ईश्वरदास उदासीन, महंत स्वामी पुरुषोत्तम दास, स्वामी हंसदास जी (रीवा) और ब्राह्मण समाज के पंडित घनश्याम दास शर्मा, पंडित प्रदीप शर्मा, पंडित प्रशांत श्रृंगी, संत सामानाराम कामदार, साईं सरुपदास, भाई राजकुमार जग्यासी, साईं आसनदास जी, साईं नारायण दास, भाई बलराम दास जगयासी, भाई अशोक आहूजा, और भाई मुरलीधर जगयासी जी की गरिमामय उपस्थिति में हवन यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई।

इस अवसर पर अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत खीमयादास, प्रदेश उपाध्यक्ष महंत ईश्वरदास, राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास और उपस्थित सर्व संत मंडल, ब्राह्मण मंडल और भक्तगणों द्वारा शिव शांति आश्रम, लखनऊ के संत साईं चांडू राम साहिब जी को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

महामंत्री स्वामी हंसदास जी ने कहा कि परम पूज्य बाबा साईं संत चांडूराम साहिब जी का परलोक गमन वास्तव में एक युग के अंत के समान है। उनका जाना न केवल हमारे समाज के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा दी और उन्हें सन्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाया। गेलानी ने बताया कि 17 अक्टूबर शुक्रवार को वर्सी महोत्सव के विश्राम अवसर पर प्रात: 11:00 बजे सत्संग महिमा, दोपहर 12:30 बजे श्रीचंद्र सिद्धार्थ सागर पाठ का भोग, दोपहर 1:00 बजे वर्सी साहिब का पल्लव और तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

बोनान्ज़ा की अवन्तिका को स्वर्ण पदक

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। बोनान्ज़ा कॉ. हॉ. से. स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा और नेशनल स्केटर अवन्तिका सिंह ने ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सतना नगर को गौरवान्वित किया है। अवन्तिका ने इस प्रतियोगिता में तीन विभिन्न इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक अर्जित किए।

विद्यालय के डायरेक्टर दिलीप अरोरा, चेयरमैन गौरव अरोरा, प्राचार्या रश्मि श्रीवास्तव, संरक्षिका रूचि अरोरा और समस्त विद्यालय परिवार ने अवन्तिका की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अवन्तिका की यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद है।

अवन्तिका के अभिभावकों को भी इस सफलता के लिए साधुवाद दिया गया। विद्यालय ने अवन्तिका को उसकी उपलब्धियों के लिए विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया।

अवन्तिका सिंह ने न केवल अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे नगर को गर्वित किया है। उनकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प और मेहनत हो, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

आरक्षक ने एआई से योगी आदित्यनाथ संग फोटो बनाई

मीडिया ऑडिटर , सतना (निप्र)। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक आरक्षक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) का उपयोग कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी एक संपादित तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर को आरक्षक ने पुलिस मुख्यालय के एक व्हाट्सऐप ग्रुप में साझा भी किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गई। तस्वीर में योगी आदित्यनाथ आरक्षक के साथ खड़े है कोटर थाने में पदस्थ आरक्षक विश्वदीप तिवारी द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरक्षक के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आरक्षक की तस्वीर पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सऐप ग्रुप में साझा होते ही तुरंत वायरल हो गई और अब विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फैल रही है।

प्रभार के भार में सतना आबकारी विभाग, कलेक्टर-एसपी से अंकुश लगाने आम नागरिकों ने की अपील

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। एक ओर प्रदेश सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग के नुमाइंदे, जिन्हें हम सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हैं। इंस्पेक्टर का अर्थ है जांचकर्ता, लेकिन यह जांचकर्ता खुद का जेब भरने में लगे हुए हैं। ऐसे में शासन की मंशा पूरी नहीं हो रही, जबकि सरकार नशा मुक्ति अभियान का नाम लेकर लाखों करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रही है। सतना जिला आबकारी अधिकारी के न रहने से जिन अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया है, वे भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिले भर में आबकारी विभाग की मनमानी साफ देखी जा रही है। जहां देखो, वहां शराब की पैकारी और आहाते खुलेआम चल रहे हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। जब इंस्पेक्टर से पूछने पर बताया जाता है कि वे फील्ड में हैं या कार्यालय में बैठक कर रहे हैं।

शहर की सेमरिया चौराहा और सर्किट हाउस की शराब दुकानें भी संचालित हैं, जो दुकान के पास ही आहाते खोलकर चल रही हैं। लेकिन यह किसी भी आबकारी इंस्पेक्टर को दिखाई नहीं पड़ रहा है। शहर में कई वर्षों से डटे आबकारी इंस्पेक्टर पूरी तरह से मनमानी पर हैं।

शाम 6 बजे से शराबियों का जमघट शराब दुकान के पास लगने लगता है। जयस्तंभ चौक, स्टेशन रोड, सर्किट हाउस और सेमरिया चौराहा की शराब दुकानों में शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक शराबियों का जमघट होता है। शराब दुकान के बाहर ठेला व्यापारी शराब पिलाने का काम कराते हैं, जिससे आम नागरिकों का वहां चलना मुश्किल हो जाता है।

गुलाब चंद्र लोधी ने लिया देहदान का संकल्प

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। संत मोतीराम आश्रम के महंत स्वामी खिम्यादास जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर 15 अक्टूबर बुधवार को शेरगंज निवासी गुलाब चंद्र लोधी, जो सीएमओ कार्यालय में कार्यरत हैं, ने जीवनकाल पश्चात देहदान का संकल्प लिया।

गुलाब चंद्र के देहदान का संकल्प लेने पर स्वामी जी ने समाज को प्रेरणा देते हुए कहा कि निश्चित ही देहदान से समाज को अच्छे चिकित्सक और नेत्रहीनों को दृष्टि मिलती है। यह एक महान कार्य है, जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। आश्रम के सेवादारी अतुल दुबे और विनोद गेलानी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी जी ने देहदान की अलख ज्योति जगाने का बीड़ा उठाया है। स्वामी जी की प्रेरणा से अब तक 128 लोगों ने जीवनकाल पश्चात देहदान का संकल्प लिया है।

इस अवसर पर गुलाब को महंत, डॉक्टर वाय एस परिहार, डॉक्टर देवेश अग्रवाल, डॉक्टर एम एम पांडे, डॉक्टर माया पांडे और डॉक्टर विकास वाधवानी ने संकल्प पत्र देकर सम्मानित किया। भाई प्रह्लाद, अतुल दुबे, मनोहर मोरयानी, गोपीचंद कापड़ी, बीमल मित्रा, नमो नारायण खत्री, और मुकेश अग्रवाल ने साधुवाद दिया।

मिठाई में मिला एल्यूमीनियम वर्क, टीम ने नष्ट कराया होटल, किचन में कीट प्रबंधन न होने पर संचालक को नोटिस; 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

मीडिया ऑडिटर, सतना (निप्र)। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बुधवार को दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। नागौद के एक होटल में कीट प्रबंधन की कमी पाई गई, जिसके लिए संचालक को नोटिस जारी किया गया। वहीं, बस स्टैंड स्थित एक मिठाई की दुकान पर बर्फी में एल्यूमीनियम वर्क मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नागौद के कचलोहा स्थित एक होटल के किचेन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किचेन में 3 क्विंटल मावा और 50 किलो मिल्क केक पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने बताया, किचेन में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री होने के बावजूद कीट प्रबंधन के कोई उपाय नहीं किए गए थे।

संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा: इस गंभीर लापरवाही के चलते होटल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। एफएसओ के अनुसार, ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों में कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है। टीम ने होटल से मिल्क केक, मावा और दूध के नमूने भी जांच के लिए एकत्र किए।

मिठाई दुकान में मिलावट पाई गई: इसके बाद टीम ने बस स्टैंड स्थित खुरचन ही खुरचन मिठाई प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। यहां बर्फी में चांदी के वर्क की जगह एल्यूमीनियम वर्क पाया गया, जो मिलावट का संकेत है। अधिकारियों ने मौके पर ही इस मिलावटी खाद्य पदार्थ को नष्ट करा दिया।

इस प्रतिष्ठान से पेड़ा, बूंदी, रसगुल्ला, मोतीचूर के लड्डू और नमकीन के नमूने भी लिए गए। सभी एकत्र किए गए नमूनों को आगे की जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुर्मी भी टीम के साथ शामिल थे।

छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत मंहगाई राहत

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली के पहले बड़ी राहत दी है। उनकी घोषणा के अनुसार राज्य शासन के वित्त विभाग ने 8 मई के परिपत्र के आधार पर पेंशनर्स को मंहगाई राहत की दरों में 1 सितंबर से वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।